



झामुमो स्थापना दिवस समारोह में छाया रहा 1932 खतियान का मुद्दा, हेमंत बोले

भाजपा नहीं चाहती झारखंड में आदिवासी सीएम रहे

विकसित झारखंड बनाने का संकल्प

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा संकल्प अगले 10 सालों में राज्य को गुजरात जैसा विकसित बनाना का है। इसे हर हाल में पूरा करेंगे। राज्य के प्रत्येक लोगों की चेहरे पर खुशी हो, लेकिन भाजपा का संकल्प मुझे जेल भेजना है। इसके लिए लगातार ईडी और सीबीआई जैसे सांप को काटने के लिए भेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल, इडी और सीबीआई के माध्यम से हमें तंग किया जा रहा है, लेकिन हमारे घर में है ही क्या। हमलोग गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापारियों से हमारी सांटगांठ नहीं है।

केंद्र पर बरसे हेमंत सोरेन

सीएम ने कहा कि कोयले में राज्य का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ है। मांगने पर केंद्र देना नहीं चाहता है और भय दिखातें है। सीएम ने राज्याल पर भी तंज कस्ते हुए कहा कि हम कानून बनाये तो असंवैधानिक है और खुद कर्नाटक मे बनाया सो सही है। भाजपा के नेता चाहते है कि वर्तमान सीएम को कैसे गिराकर खुद सीएम बने। दो फरवरी को दुमका के गांधी मैदान मे झामुमो का 44 वां झारखण्ड दिवस समारोह देर रात तक चला। समारोह में पार्टी सुप्रिमो शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम नेता-कार्यकर्ता मौजूद थे। देर रात गुरुजी शिबू सोरेन के भाषण के बाद समारोह समाप्त हुआ।

अमित शाह आज देवघर में नैनो

खाद फैक्टरी का करेंगे उद्घाटन

पहले करेंगे बाबा के दर्शन, फिर विजय संकल्प रैली

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक माह में दूसरी बार झारखंड पधार रहे हैं। वह संताल परगना को बड़ी सौगात देंगे। शनिवार को श्री शाह जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफको के नैनो खाद कारखाना की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले श्री शाह शनिवार की सुबह विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। यहां से सवा 11 बजे चोपर से देवघर रवाना होंगे। वहां वहां बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना कर जसीडीह में नैनो यूरिया खाद कारखाना का शिलान्यास करेंगे। फिर विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प रैली के माध्यम से संथाल में भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलायेंगे। अपराह्न 3:15 से शाम 4:45 बजे तक आरके मिशन विद्यापीठ के



सुबह आमजनों का मंदिर प्रवेश वर्जित

श्री शाह के देवघर आगमन के मद्देनजर चार फरवरी को देवघर बाबा मंदिर में सुबह आठ बजे से श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री की पूजा-अर्चना कार्यक्रम के पश्चात आम श्रद्धालुओं के लिए पुनः सामान्य रूप से मंदिर प्रवेश आरंभ हो जाएगा।

शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनकी देवघर यात्रा

को ले कर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं। इसे ले कर बाबा

बस की चपेट में आ कर रिस्स के डॉक्टर की मौत

रांची। राजधानी रांची के करमटोली एरिया में स्कूली बस की चपेट में आ कर रिस्स के डॉक्टर सौरभ कुमार शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। डॉ शर्मा रिस्स में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में पदस्थापित थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डॉ शर्मा शुक्रवार की दोपहर घर से खाना खाकर रिस्स की ओर स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। करमटोली के पास राहुल ऑटोमोबाइल्स के समीप एक स्कूली बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से रिस्स भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह सर्जरी डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया भी करते थे। उनके असमय मौत से रिस्स में मातम का माहौल है।

राज्यपाल ने दो विधेयक को दी मंजूरी, 27 से बजट सत्र

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने दो विधेयकों आकरिष्मकता निधि व राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब आकरिष्मकता निधि से 1200 करोड़ रुपये की निकासी सरकार कर सकती है। कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक पर उन्होंने सरकार को कई सुझाव भी दिये हैं। वहीं राज्यपाल ने 27 फरवरी से बजट सत्र आहूत करने की भी मंजूरी दे दी है। सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार अपना चौथा बजट 3 मार्च को पेश करेंगी। झारखंड आकरिष्मकता निधि (संशोधन विधेयक 2022 और झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को विधानसभा से

➔ अब आकरिष्मकता निधि से 1200 करोड़ निकाल सकती है सरकार

पारित कर 23 दिसंबर 2022 को पारित कर राजभवन भेजा गया था। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य की आकरिष्मकता निधि से सरकार 500 करोड़ के बदले 1200 करोड़ रुपये की निकासी कर सकती है। अब राज्य का बजटीय आकार एक लाख करोड़ से अधिक हो गया है। राज्य गठन से अब तक मुद्रा प्रसार में वृद्धि को देखते हुये नयी कल्याणकारी एवं रोजगार-मुखी योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन तथा अप्रत्याशित घटनाओं से निबटने के लिए आकरिष्मकता निधि की राशि स्थायी रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। (शेष 11 पर)

बोले मुख्यमंत्री

- ➔ अधिकार के लिए करते रहेंगे संघर्ष
- ➔ हम किसी से उरनेवाले नहीं
- ➔ विकसित राज्य बनाना है संकल्प

खबर मन्त्र संवाददातादाता

दुमका। यहां संपन्न झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में 1932 खतियान का मुद्दा छाया रहा। इस मुद्दे को पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साथ। एक सुर में सभी नेताओं ने मंच से घोषणा की कि जो 1932 की बात करेगा

वही झारखंड पर राज करेगा। पार्टी ने संकल्प लिया कि इसे पाने के लिए संघर्ष हम करते रहेंगे जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जायेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमारा संकल्प अगले 10 सालों में राज्य को गुजरात जैसा विकसित बनाने का है। भाजपा को प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को बीस साल मे गर्त मे डाल दिया। जब हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते है तो हमारे पीछे इडी और अन्य संस्थाएं पीछे लगा देती है। इन सबसे हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हमारे लोगों के जेबें पहले से फटी है तो हम उसको कैसे लूटगे। समारोह में हुंकार भरते हुए



कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि यहां के स्थानीय लोग सीएम बनें। यह कारण है कि राज्य पहले सीएम बाबूलाल को कुछ ही साल मे हटा दिया। फिर अर्जुन मुंडा बने तो

उनको भी कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया। गुजरात के ये व्यापारियों की पार्टी छत्तीसगढ़ से आये रघुवर दास को सीएम बनाकर पांच साल पूरा कराया। (शेष 11 पर)

हमीन कर बजट

विशेषज्ञों ने सरकार को दिये कई सुझाव

विकास पर बजट का हो फोकस

- ➔ अच्छे सुझावकर्ता को सीएम ने किया सम्मानित
- ➔ सुझावों पर अमल करने के प्रयास का दिया भरोसा

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, जरूरतमंद समुदाय सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतर और समावेशी बजट बनाया जा सके। इसी सोच के साथ हमीन कर बजट अंतर्गत राज्य की आम जनता एवं विशेषज्ञों के सुझाव राज्य सरकार ने बजट से पूर्व लेने का काम किया है। आप सभी के सुझाव के अनुरूप लोक कल्याणकारी बजट बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार चाहती है कि झारखंड के लोगों को क्या सपने दें कि यहां के लोग विकास की मुखधारा से जुड़ सकें। श्री सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा। (शेष 11 पर)

सुनीता चौधरी राजग प्रत्याशी बनीं, आज करेंगी नामांकन

रांची। रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजग ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आजसू



की सुनीता चौधरी रामगढ़ उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। सुनीता आजसू के वरिष्ठ नेता और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी हैं। सुनीता के नाम पर सहमति के बाद इसकी घोषणा आजसू कार्यालय में की गयी। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत और संसदीय बोर्ड के सदस्य डोमन सिंह मुंडा ने पार्टी प्रेस वार्ता में उनके नाम की घोषणा की। सुनीता चौधरी 4 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के समय पार्टी सुप्रिमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। (शेष 11 पर)

सीबीआइ ने एचसीएल के पूर्व सीएमडी पर एफआइआर किया

सुरदा माइंस लीज मामला

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। सुरदा माइंस लीज मामले में सीबीआई ने बड़ी करवाई की है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के पूर्व सीएमडी केडी दीवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर बिना टेंडर काम करवाने का आरोप है। इससे भारत सरकार और एचसीएल को 36.19 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं, माइंस आवंटन के मामले में गड़बड़ी के मामले में इंडियन रिसोर्स लिमिटेड समेत अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गयी है।

राशन की कालाबाजारी के खेल में राज्य की गरीब जनता फेल तीन माह से बंद है पीएमजेकेवाई कोटे का अनाज, नये साल में भी फांके पड़े

ग्रीन कार्डधारियों को भी लाले

सुचीर

रांची। सरकारी अनाज की लगातार जारी कालाबाजारी के इस खेल में राज्य की गरीब जनता पिस रही है। उन्हें पिछले तीन महीने से अनाज नहीं मिल रहा है। जनवरी से पीएमजेकेवाई कोटे का अनाज बंद कर दिया गया, परंतु राजधानी के गरीबों को पिछले तीन से पीएमजी कोटे के अनाज नहीं मिला। नये साल के पहले माह भी फांके रह गये। अनाज के अभाव में राजधानी के गरीब पेट पर पत्थर बांधकर सो रहे हैं। उनका कहना है कि पीडीएस दुकानों तक अनाज आता ही नहीं है। अनाज की कालाबाजारी गोदाम के स्तर पर ही कर दी जाती है। इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। नतीजा डोर स्टैर डिलिवरी करनेवाले से लेकर एफसीआई के ट्रांसपोर्टर तक कालाबाजार के इस खेल में शामिल हैं।

क्या कहता है विभागीय आंकड़ा


करीब 17 लाख हरा राशन कार्डधारी ऐसे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखंड के मुताबिक (आहार पोर्टल) दिसंबर 2022 में एक भी हरा राशन कार्डधारक को अनाज नहीं मिल सका है। इसके अलावा लोहरदगा में 31.43 फीसदी, धनबाद में 29.67 फीसदी और लातेहार जैसे जिलों में 27.61 फीसदी कार्डधारकों को लाभ मिल पाया। अक्टूबर माह में 22.45 कार्डधारी लाभान्वित हो पाए थे। सितंबर में 35.82 जबकि अगस्त में



62.54 फीसदी और जुलाई में 79.96 फीसदी (राज्यभर में) कार्डधारकों को लाभ मिल पाया था। इस आधार पर कहें तो जुलाई से नवंबर के बीच हरे राशन कार्डधारियों के बीच अनाज वितरण के काम में विभाग लगातार कमजोर पड़ता गया है। 80 फीसदी कार्डधारकों को लाभ मुहैया कराने वाला विभाग कई कारणों से 15 फीसदी कार्डधारकों के पास नहीं पहुंच पाया।



खोना (किग्री) : 54,400 रु./10 बाम
चांदी : 73,000 रु.प्रति किग्री



हाइकोर्ट में ढुल्लू महतो की ओर से हुई गवाही गवाह ने कहा- वे पोलिंग नहीं, बूथ एजेंट थे

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को हुई। मामले में ढुल्लू महतो की ओर से तीसरे गवाह कमल महतो की गवाही कराई गई। कमल महतो की ओर से शपथ पूर्वक लिखित गवाही कोर्ट में प्रस्तुत की गई। जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि वे बूथ संख्या 181 में वे पोलिंग एजेंट थे। जलेश्वर महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने उनका प्रति परीक्षण किया। जिसमें गवाह कमल महतो की ओर से कहा गया कि वह बूथ एजेंट थे

पोलिंग एजेंट नहीं थे। जिस पर अधिवक्ता ने उनसे पूछा की उनको बूथ एजेंट या पोलिंग एजेंट बनने के लिए उन्हें किसने अधिकृत किया था या किनके हस्ताक्षर से वे पोलिंग एजेंट या बूथ एजेंट बने थे। जिस पर गवाह की ओर से कहा गया की उन्हें बूथ एजेंट बनाने के लिए किसी ने अधिकृत नहीं किया था। गवाह ने यह भी कहा गया ढुल्लू महतो के जीतने के बाद जलेश्वर महतो ने बूथ संख्या 181 के बारे में झूठी बात फैलाई थी जिस पर प्रति परीक्षण के दौरान अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि क्या झुठ फैलाया गया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मामले की अगली गवाही 17 फरवरी को होगी।

बता दें कि जलेश्वर महतो की ओर से गवाही बंद हो चुकी है। जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि जिस समय ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन जमा किया था उस समय वे डिसक्वालिफाइट थे, क्योंकि उनको अलग-अलग धाराओं में सजा हुई है। वह कुल मिलाकर 2 साल से ज्यादा का समय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए कहा गया है कि ढुल्लू महतो का नामांकन रद्द होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को उसी समय ढुल्लू महतो का नामांकन कर रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया।

प्रदेश प्रभारी ने तैयारी को लेकर झारखंड राजद के नेताओं के साथ की समीक्षा

12 को रांची आर्येंगे तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक

खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। झारखंड राजद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुट गया है। इसी के तहत 12 फरवरी को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर झारखंड राजद तैयारी में जुट गया है। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को देखते हुए पूर्व मंत्री और झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव शुक्रवार को रांची पहुंचे। उन्होंने राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में तेजस्वी के आगमन और उनके कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया।



सौहार्द बिगाड़ने वालों को राजद नहीं करेगा बर्दाश्त

जयप्रकाश ने कहा कि सभी लोग एकजुटता के साथ संगठन के कार्य में लग जाएं। पंचायत से प्रखंड स्तर तक सभी को मिलकर संगठन को मजबूत करना है। पूर्व में जिस तरह से यहां राजद के विधायक, एमपी हुआ करते थे, उसी तरह आने वाले चुनाव में भी हमारे उम्मीदवार एमपी, एमएलए बनकर जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के खिलाफ कोई भी शक्ति काम करेगी, तो राजद कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रमंडलीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक प्रभारी बनाये जायेंगे। सभी को जवाबदेही दी जाएगी।

संगठन की मजबूती और सदस्यता अभियान की करेंगे समीक्षा

प्रदेश मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि 12 फरवरी बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची पहुंचेंगे। झारखंड राजद संगठन के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। संगठन की मजबूती को लेकर चलाए रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा भी करेंगे।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रामगढ़

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना संख्या 14/2022-23 दिनांक 28.12.2022, जिसका PR No. 286261 Drinking Water and Sanitation (22-23)#D है जो Retrofitting of Tokiusd RWSS & Mnuu Bumri Rural Water Supply Scheme for the year 2022-23 से संबंधित है, को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है।

क्र०	विवरण	पूर्व में प्रकाशित तिथि	संशोधित तिथि
1	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	Date:- 05.01.2023 at 05.00 PM	Date:- 06.02.2023 at 05.00 PM
2	बीड प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	Date:- 12.01.2023 up to 05.00 PM	Date:- 13.02.2023 up to 05.00 PM
3	परिणाम विपत्र एवं अग्रचन की राशि जमा करने की तिथि	Date:- 16.01.2023 up to 03.00 PM in the office of the Executive Engineer, D. W. & S. Division, Ramgarh	Date:- 14.02.2023 up to 03.00 PM in the office of the Executive Engineer, D. W. & S. Division, Ramgarh
4	निविदा खोलने की तिथि	Date:- 16.01.2023 at 05.00 PM	Date:- 14.02.2023 at 05.00 PM

नोट.—शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

कार्यालयक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रामगढ़

PR 289177 (Drinking Water and Sanitation)22-23#D

कार्यालय :-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,खूँटी

नगर पंचायत, खूँटी के अधीन पॉली क्लीनिक/U-HWC अन्तर्गत संसूचित रिक्त पदों नियुक्ति संबंधित आवश्यक सूचना

नगर पंचायत, खूँटी के अधीन पॉली क्लीनिक /U-HWC अन्तर्गत संसूचित रिक्त पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्ति हेतु कार्यालय के विज्ञापन सं०—03/2023 PR.NO.286697 (Health Med Edu and Family Welfare) 22-23#D प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों पर आवेदित आवेदकों की स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदनों की सूची जिले के अधिकृत वेबसाइट <http://khunti.nic.in> पर प्रकाशित कर दिया गया है।

आवेदित आवेदकों को प्रकाशित सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति है, तो दिनांक—07.02.2023 के संध्या 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में हाथों हाथ अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे एवं आपत्ति की प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे, समय समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,खूँटी

PR 289122 Health Med Edu and Family Welfare(22-23)#D

Office of the Executive Engineer
Drinking Water & Sanitation Division, CHATRA
Email : eedwsd.chatra01@gmail.com

Letter No :170Corrigendum-1stDate :03.02.2023

The following changes have been done due to some unavoidable circumstances in Tender Reference No. DWSD/UNTD/DT/CTR/43/2022-23 (1" C) Construction of 125/115 mm dia 60.00 Mtrs Depth Drilled Tube, 125/115 mm dia 90.00 Mtrs Depth Deep Drilled Tube Well and 200 mm X 165 mm dia 180 Mtrs Depth High Yield Drilled Tube Well with Installation of L.M-II (IS:15500 Part-2/2004) Hand Pump 930/90) with 32 mm dia Medium Class G.I Riser Pipe by DTH Rig Machine with 125 mm & 200 mm dia Blue UPVC Casing Pipe on "TurnKey Basis" Under D.W.&S. Division, Chatra for the Year 2022-23 (By Untied Fund)on published vide P.R. No. – 288119 (DWSD) 2022-23

Previously Published		Amended as follow
1	Date of Tender Uploading in Website	28.01.2023 at 5:00 PM03.02.2023 at 5:00 PM
2	Last Date / Time for Submission of Tender Documents	03.02.2023 upto 5:00 PM09.02.2023 upto 5:00 PM
3	Last Date & Time of Receiving EMD/Cost of BOQ (Hard Copy)	04.02.2023 upto 3:00 PM In the Office of - Executive Engineer, D.W.&S. Division, Chatra and Superintending Engineer, D.W.&S. Circle, Hazaribagh.04.02.2023 at 5:00 PM10.02.2023 upto 3:00 PM In the Office of - Executive Engineer, D.W.&S. Division, Chatra and Superintending Engineer, D.W.&S. Circle, Hazaribagh.10.02.2023 at 5:00 PM
4	Date of Opening Tender	

Other condition will be same as mentioned in NIT & B.O.Q

PR 289134 Drinking Water and Sanitation(22-23).D

Executive Engineer
D.W.&S. Division, CHATRA

झारखण्ड सरकार
कृषि ,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (उद्यान प्रभाग)
कार्यालय – जिला उद्यान पदाधिकारी, हजारीबाग
(उद्यानिक योजनाओं के लिए आम –सूचना)

राज्यादेश सं० –40 दिनांक 11.11.2022 वित्तीय वर्ष 2022–23 केन्द्र प्रायोजित मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर (MIDH) योजनान्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला–हजारीबाग के इच्छुक कृषकों से नीचे अंकित विभिन्न अवयवों का अनुदानित दर पर लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक – 15.02.2023 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है ।

आवेदन आमंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिला – हजारीबाग के लिए MIDH (NHM) योजनाएँ निम्नवत् है:-

Sl No.	Components	Unit	Hazaribagh Physical Target
1	Dragon Fruit	ha.	01
2	Strawberry	ha.	01
3	Banana (TC)	ha.	01
4	Pineapple (Sucker)	ha.	01
5	Papaya (Package with drip Irrigatrion)	ha.	00
6	Mango	ha.	12
7	Citrus	ha.	02
8	Aonla	ha.	02
9	Guava	ha.	10
10	Vegetable Hybrid	ha.	06
11	Flower(Cut Flower small & Marginal Farmers)	ha.	04
12	Flower (Bulbous Flower small & Marginal Farmers)	ha.	04
13	Flower (Losse Flower small & Marginal Farmers)	ha.	04
14	Seed Spice & Rhizomatic Spices	ha.	10
15	Rejuvenation	ha.	01
16	Creation of Water Resource	unit.	0.07
17	Water Harvesting System	unit	03
18	Plastic Mulching	ha.	02
19	Anti Bird / Anti Hail Nets	ha.	02
20	Organic Farming Vermi Compost Unit / Organic Input Production HDPE VERMI BED	nos.	06
21	HRD farmer Training (Inside State)	nos.	25
22	HRD farmer Training (Outside State)	nos.	05
23	HRD Exposure Visiti (Outside State)	nos.	05
24	Pack house	unit	01
25	Eveporative / Low energy Cool Chamber (8MT)	nos.	06
26	preservation Unit	nos.	06
27	Low Cost Onion Storage Structure (25 MT)	nos.	02
28	Static Mobile Vending Cart	nos.	01

नोट:-

01. क्रमांक 01 से 14 में अंकित कार्य अवयव का कार्य कलस्टर आधारित होगा।

02. क्रमांक 24 से 28 में अंकित कार्य अवयव से संबंधित आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से सत्यापित करारकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

03. क्रम सं० 01 से 15 तथा 17 एवं 18 के आलोक में आवेदन के साथ जमीन का मालगुजारी रसिद एवं वंशवाली जन-प्रतिनिधि से सत्यापित कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

04. आवेदन पत्र के साथ आधार की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

05. क्रमांक 21 से 23 में अंकित कार्य अवयव के साथ शैक्षणिक योग्यता की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06. पिछले तीन वर्षों में जिन कृषकों या उसके परिवार का चयन नहीं किया गया हो, केवल उनका चयन किया जायेगा।

07. पिछले तीन वर्षों में जिन ग्रामों का चयन नहीं किया गया है उन ग्रामों के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

08. अनु० जाति / जन जाति / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग / लघु एवं सिमांत कृषक को प्राथमिकता के आधार पर योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

09. अंकित अवयवों के लाभ हेतु आवेदन पर संबंधित जनसेवक / DTM/BTM / वैज्ञानिक तथा पंचायतीराज के सहत ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य / मुखिया द्वारा अनुमोदन अनिवार्य होगा।

10. कार्यालय अथवा में आवेदन नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

11. योजनाओं से संबंधित विशेष जानकारी हेतु कार्यालय अथवा में सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला उद्यान पदाधिकारी,
हजारीबाग

PR 289156 (Agriculture,Animal Husbandry And Co-opretive Department) 22-23 (D)

कार्यालय नगर पंचायत, खूँटी

पत्रांक.....खूँटी, दिनांक.....

E-Tender Notice

(Through E-Procurement mode only <http://jharkhandtenders.gov.in>)

Sr.No.	Particulars	Details
1.	Name of Work	Rejuvenation of Kamanata Jalashay Under Nagar Panchayat, Khunti.
2.	Estimated Cost (INR)	Rs. 3,48,89,087/- (Rupees Three Crore Forty Eight Lakhs Eighty Nine Thousand Eighty Seven Only)
3.	Bid Security (INR)	3,48,891/- (Rupees Three Lakhs Forty Eight Thousand Eight Hundred Ninety One Only)
4.	Cost of Bid Document (INR)	10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) non-refundable
5.	Time of Completion	18 Months
6.	Date of e-publication of tender	13.02.2023 at 5.00 pm
7.	Document downloading start Date	13.02.2023 at 5.00 pm
8.	Pre bid meeting date, Time & Venue	17.02.2023 at 3.00 pm, Office Nagar Panchayat, Khunti
9.	Bid submission end date	27.02.2023 at 3.00 pm
10.	Last day for the submission of Bid Security, cost of bid document	28.02.2023 up to 2.00 pm
11.	Bid opening date (online)	28.02.2023 at 3.00 pm
12.	Mode of Submission of Bids	e-tendering (https://jharkhandtenders.gov.in)
13.	Name &Address of office Inviting Tender	Executive Officer, Nagar Panchayat, Khunti
14.	Helpline Number	7461059733

Note: Only e-Tender will be accepted
Complete bid document is available on website <http://jharkhandtenders.gov.in>

PR 289148 Urban Development(22-23)D

कार्यालयक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी

Government of Jharkhand
Department of Rural Development
FFP Building, Dhurwa, Ranchi –834004

Notice for Inviting Tender
Invitation of Bid for setup of Call Centre for Rural Development Department Government of Jharkhand.

Tender Ref.No.:- 01-stha (Comp)- 09/2022/....., Dated

Sl.	Information	Details
1	Subject of Tender	To setup Call center for Rural Development Department Government of Jharkhand
2	Tender Fee	No Tender Fee
3	EMD	Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)
4	Bid Validity Period	180 Days
5	Date of publication of tender	07.02.2023
6	Last date of submission of tender	22.02.2023
7	Date and Time for Pre- Bid Conference	28.02.2023
8	Place for Pre Bid Conference	Meeting Hall, First Floor, FFP Building, Dhurwa, Ranchi
9	Date & Time for Technical bid opening	06.03.2023
10	Date & Time for Financial bid opening	To be decided after finalization of Technical bid
11	Contact Person for queries	Arun Kumar Singh, Joint Secretary Cum CIO,RDD
12	Contact Number	9931548318
13	Contact Email Address	reddjharkhand2013@gmail.com
14	Place of bid submission in hard copy	Room No.-118, First Floor, FFP Building, Dhurwa, Ranchi-834004

Note: The above dates may change due to abrupt declaration of holidays.

Detailed tender document can be seen on website redd.jharkhand.gov.in.

PR 289169 Rural Development(22-23)#D

(Arun Kumar Sinha),
Under Secretary to the Government,
Department of Rural Development,
Government of Jharkhand.

चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश मामला

जवाब दाखिल करने के लिए इडी ने मांगा समय

रांची। जेल में बंद चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश की ओर से निचली अदालत द्वारा लिए गए सज़ान आदेश को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने इडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यहां उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने 10 जनवरी को प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है।



मनरेगा आयुक्त ने की ववुअल बैठक

मनरेगा की योजनाओं को समय पर पूरा करायें पदाधिकारी : राजेश्वरी बी

खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी डीडीसी के योजनाओं को सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी लॉबित योजनाओं को ससमय पूरा करें। ताकि ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुंचे। मनरेगा आयुक्त शुक्रवार को सभी जिलों के डीडीसी के साथ ववुअल बैठक कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने संचालित योजनाओं की जिलावार जानकारी ली। मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सुजन में आवश्यक प्रगति लाने का भी निर्देश दिया। मनरेगा आयुक्त ने जिन प्रमुख योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उनमें बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोदो हो विकास योजनाए आंगनबाड़ी योजना शामिल हैं।



राहुल गांधी को हाइकोर्ट से बड़ी राहत सिविल कोर्ट से जारी नोटिस पर रोक

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। राहुल गांधी की

ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। बता दें कि 4 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर सुनवाई की तिथि निर्धारित थी। इससे पहले नोटिस पर रोक लगने से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका

किस्कु की कोर्ट ने उन्हें वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायतवाद दर्ज करवाया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। नोटिस जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

रामगढ़ उपचुनाव में केला और हाथ में होगी भिड़ंत

भाजपा से दिल मिलेगा तभी आजसू रामगढ़ फतह करेगा!

उदय चौहान

रांची। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हवा गर्म हो गयी है। फिलहाल, महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया है। जबकि, राजग की ओर से सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि, सिर्फ आजसू संसदीय बोर्ड ने सुनीता चौधरी को रामगढ़ का प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। आजसू की बैठक में राजग का एक धड़ा भाजपा नदारद थी। इसलिये, पिछले चुनाव की भांति आजसू को भाजपा का साथ नहीं मिला तो कांग्रेस को फायदा पहुंचना तय है। कहने का तात्पर्य है कि भाजपा से दिल मिलेगा तभी आजसू रामगढ़ का किला जीत सकेगी।

सूत्रों के अनुसार कुर्मी बहुल रामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक दलों ने धूल उड़ाना शुरू कर दिया है। सभी दल अपने-अपने दावे भी कर रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की संख्या 90 हजार के करीब है। इसके बाद वैश्य मतदाता जिनकी संख्या तकरीबन 40 हजार है। मुस्लिम मतदाता की संख्या 35 हजार के करीब है। वहीं, 20 हजार के करीब आदिवासी, 15 हजार अनुसूचित जाति और लगभग 20 हजार के



करीब सर्वांग मतदाता हैं। इस उपचुनाव में मुख्य मुक़ाबला आजसू का केला व कांग्रेस का पंजा के बीच तय है। इसके अलावा अन्य झारखंड नामधारी दल व वाम दलों की ओर से उम्मीदवार उतारा जा सकता है। राजनीतिक प्रेक्षकों का दावा है कि पिछले 22 सालों से इस सीट पर महतो प्रत्याशी का दबदबा रहा है। इस बार भी इस सीट पर मुख्य मुक़ाबला महतो प्रत्याशी के बीच ही हो सकता है। आजसू की सुनीता चौधरी का कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार बजरंग महतो से होगा। रामगढ़ से 3 उर्त विधायक रहे चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को आजसू ने मैदान में उतारा है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जररणा दौरे पर यह घोषणा कर दी थी कि रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस की निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जो हो,

रामगढ़ का मुक़ाबला दिलचस्प होने जा रहा है। पिछले चुनाव मे आजसू के गढ़ को भेतेते हुए कांग्रेस ने पररम लहराया था। कांग्रेस की ममता देवी कोर्ट ने सजा सुनायी थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गयी। इधर, जानकारों का मानना है कि भाजपा उपर-उपर आजसू का समर्थन कर रही है। यदि भाजपा का दिल आजसू से नहीं मिला तो उसके लिये संकट बढ़ सकती है। भाजपा ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। इससे राजग के दोनों घटक दलों भाजपा व आजसू के बीच संशय की स्थिति बन गयी है। साल 2019 में यूपीए गठबंधन की उम्मीदवार ममता देवी ने 99,944 वोट लेकर सीट जीती थी। दूसरे स्थान पर आजसू पार्टी की उम्मीदवार सुनीता चौधरी 71,226 मत प्राप्त की थी। तीसरे स्थान पर भाजपा प्रत्याशी रणंजय कुमार ने 31,874 मत प्राप्त किया था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और भाजपा का गठबंधन नहीं था।

स्पीड न्यूज

हुसैनाबाद : मार्च में होगी भव्य पंचमुखी हनुमानजी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

हुसैनाबाद पलामू। अग्रवाल लॉज में जाला बाजार के प्रतिष्ठित व्यावसायिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई। जिसमें शहर के पुरानी ठाकुरबाड़ी कुर्मी टोला स्थित श्री श्री हनुमानजी के पंचमुखी भव्य मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा हेतु तैयारी पर चर्चा की गयी। अध्यक्षता ध्रुव प्रसाद अग्रवाल व संचालन अजित अग्रवाल ने किया। जिसमें एक समिति गठित की गयी। सर्वसम्मति से जपला के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी प्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष, पवन अग्रवाल उपाध्यक्ष, संतोष सोनी सचिव, राकेश विश्वकर्मा उप सचिव, मनीष अग्रवाल कोषाध्यक्ष, काशी सोनी सह कोषाध्यक्ष बनाये गये। विदित हो कि मंदिर निर्माण को लेकर सुबोध शौंडिक व कई व्यवसायी पूर्व से लगे हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा मार्च में होनी है। बैठक में नगर सांसद प्रतिनिधि, श्रवण अग्रवाल, भाजपा नेता उदय विश्वकर्मा, उदय अग्रवाल, राजू शौंडिक, रंजन शौंडिक, बटेरण प्रसाद, मुकुंद अग्रवाल, प्रेम चौधरी, बिहारी चौधरी, सुदामा चौधरी आदि उपस्थित थे।

जेएस कॉलेज के साईकोलॉजी विभाग में अभाविप ने की तालाबंदी

मेदिनीनगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनता शिवरात्रि महाविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने नीतूतजलि कुमारी के नेतृत्व में साइकोलॉजी विभाग में तालाबंदी की। मौके पर उपस्थित छात्र-छात्राओं ने तालाबंदी का कारण बताते हुए कहा कि विगत कई दिनों से विभाग काफी देर से खुल रहे थे जिससे न तो कक्षाएं नियमित चल रही थी और न ही पठन-पाठन कार्य हो रहा था। लगातार शिकायत पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब तालाबंदी का निर्णय लिया गया। विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि इंटरनल और प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हो जाने के बावजूद साइकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष के उदासीन रवैये के कारण अभी तक विद्यार्थियों का अंकपत्र नहीं बना है। रिया सिंह ने कहा कि विभाग खुलने का समय 10:30 बजे है, जबकि प्राध्यापक एक-डेढ़ घंटे विलंब से पहुंचते हैं। प्राचार्य ने छात्रों को आश्वस्त किया कि आगे से विभाग ससमय खुलेगा और सभी का कार्य निष्पादित होंगे। मौके पर एश्वर्या, सोनम, खुशी, उज्ज्वल, दीपक, सेजल, संध्या, प्रकाश कुमार, उत्कर्ष तिवारी उपस्थित थे।

संगठित होने से ही समस्याओं का समाधान

चैनपुर पलामू। प्रखंड के बसरिया कला पंचायत में शुक्रवार को युवा जागृति केंद्र की सभा हुई, जिसमें पंचायत स्तरीय समिति गठित की गयी। सर्वसम्मति से गोरख सिंह अध्यक्ष, नागेंद्र सिंह उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध सिंह सचिव, अनोद सिंह सह सचिव, निरंजन सिंह एवं राकेश सिंह कोषाध्यक्ष, नित्यानंद सिंह मंत्री, हरेंद्र सिंह महामंत्री नियुक्त किये गये। बसरिया कला में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने युवा जागृति केंद्र की सदस्यता ग्रहण की। युवा जागृति केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष राजन सिन्हा ने कहा कि समाज में व्यवस्थाजनित समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होना जरूरी है। युवा जागृति केंद्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को संगठित कर राष्ट्रभक्ति एवं रा्ट्र सेवा की भावना का संचार कर रहा है। मौके पर केंद्रीय सचिव मुकेश विश्वकर्मा, प्रखंड अध्यक्ष विश्वास सिंह उर्फ मुह्मन सिंह, जिला सचिव छोटू तिवारी, नगर अध्यक्ष प्रवीण सिंह, पवन सिंह, राकेश सिंह, आशीष सिंह, परेश सिंह, अरविंद सिंह, ऋषि सिंह, अभिषेक सिंह, रामप्रसाद सिंह, राजेश सिंह, अरुण सिंह, निरंजन सिंह, हितेश सिंह भी थे।

जनता दरबार : उपायुक्त ने सुनी समस्याएं

मेदिनीनगर। उपायुक्त आजनेयुलू दोड़े ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार लगाया। जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत करते हुए समाधान का अनुरोध किया। समस्याओं का अवलोकन करते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा में निष्पादन का निर्देश दिया। चैनपुर के भेरा निवासी उदय महतो ने शिकायत की है कि 15वें वित्त आयोग से हुए पीसीसी पथ निर्माण की भुगतान राशि में पंचायत सचिव एवं मुखिया रिश्तत मांग रहे हैं। राजहारा पंचायत के कैलाश चौहान ने सीएम सुखाड़ राहत योजना से बिना कारण बताये आवेदन वापस करने की शिकायत की। कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरियों ने मानदेय में वृद्धि का अनुरोध किया। चैनपुर प्रखंड के सेमरटांड के महादेव नगर वार्ड 33 के लोगों ने मुहल्ले में पथ निर्माण की मांग की। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कोरिया निवासी अनिल राम ने कहा कि पीएम आवास योजना से आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है। परंतु मैं भूमिहीन हूं। मेरे कच्चे में मात्र गैरमजदुरा जमीन है। जिसमें मुझे आवास निर्माण की स्वीकृति दी जाए। हैदरनगर थाना क्षेत्र के सडैया के अनिल और वृजदेव रजवार ने अपने खेत में तालाब निर्माण की स्वीकृति मांगी। जनता दरबार में जमीन संबंधी, प्रधानमंत्री आवास व जमीन दाखिल खारिज, जमीन हड़पने आदि से संबंधित आवेदन आये जिससे उपायुक्त ने संबंधित विभागों के प्राधिकारियों को अग्रसारित कर निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया।

आरएसएस ने कराया मंडल सम्मेलन

मोहम्मदगंज पलामू। रविवारीय बाजार के बस पड़ाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में शुक्रवार को मंडल सम्मेलन किया। जिसकी अध्यक्षता वंशरोपण सिंह जबकि संचालन आरएसएस खंड प्रमुख मुकेश चौरसिया ने किया। सर्वप्रथम भगवा ध्वज का विधिवत पूजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सीताराम ने बौद्धिक मार्गदर्शन दिया। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि भारत के स्वयंसेवक अतिम क्षण तक देशहित के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राष्ट्रहित कार्यों में बढ-चढ़कर हिस्सा लेते हैं साथ ही राष्ट्रहित पर तत्पर रहते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को देशभक्ति का पालन पूरी निष्ठा एवं देश प्रेम की भावना से करना प्रथम दायित्व है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 2025 में आरएसएस का 100वां वर्षगांठ को भव्य बनाने को लेकर है।

जनहित में निजी भूमि दान देना पुनीत कार्य : विधायक

❶ नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के सीताडीह में वनभोज कार्यक्रम आयोजित

खबर मन्त्र संवाददत्ता

पांकी पलामू। पांकी विधानसभा के प्रखंड नीलांबर-पितांबर पुर के ग्राम सीताडीह में वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वनभोज कार्यक्रम में पांकी विधायक डॉ शशिभूषण मेहता समेत कार्यकर्ता व ग्रामीण शामिल हुए। मौके पर विधायक डॉ मेहता ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर निदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सीताडीह के कई गांव को जोड़ने वाली सड़क जिससे नीलांबर पीतांबर पुर को त्रस्त खस जाने में काफी सहूलियत होती है उसे लोगों की



सीताडीह में वनभोज के दौरान कार्यक्रम स्थल जाते और लोगों को संबोधित करते पांकी विधायक डॉ शशिभूषण।

परेशानी को देखते हुए अपने निजी खर्च से बनवाया था। सड़क बनने से लोगों में काफी खुशी थी जिसे देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जो अपना स्नेह और सम्मान दिया है उससे अभिभूत हैं। मौके पर सड़क निर्माण हेतु भूमि दान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले को शौल एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कहा कि जनहित के कार्य हेतु



अपनी निजी भूमि दान देना काफी पुनीत कार्य है। कहा कि वनभोज से आपसी भाईचारा व एकता बढ़ता है। मौके पर मदनलाल वर्मा, प्रोफेसर बचन ठाकुर, भाजपा के जिला प्रतिनिधि प्रकाश मेहता, अधिवक्ता लाला प्रसाद यादव, तरहसी प्रखंड के भाजपा के मंडल अध्यक्ष अजीत प्रसाद गुप्ता, नौडीहा पंचायत के मुखिया एवं विधायक प्रतिनिधि

हुसैनाबाद : खाद्य सुरक्षा शिविर में छोटे व्यापारी सहित 15 का पंजीकरण

>> व्यापारियों को दो नयी प्रशसन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी

खबर मन्त्र संवाददत्ता

हुसैनाबाद पलामू। हुसैनाबाद अनुमंडल



कार्यालय सभागार में अवर सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग व अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिविर लगाया। जिसमें छोटे, रेहड़ी, टेली वाले 15 व्यापारियों का खाद्य पदार्थ बिक्री का पंजीयन किया गया। एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने बताया कि राज्य सरकार ने यह सुविधा छोटे व्यापारियों को आसानी से पंजीयन करने के लिए कराई है। शिविर में चाट पकौड़ी, जूस,

पेठा, नमकीन, मिठाई, फल सब्जी, खिरयानी, लस्सी व गन्ने का जूस आदि खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले लोगों का आसानी से पंजीकरण हो सके इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया है। अधिकतर व्यापारियों ने एक वर्ष का शुल्क जमा कर पंजीयन कराया। कार्यक्रम के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुलाब लकड़ा ने बताया कि जो व्यापारी इस अवसर पर पंजीयन नहीं करा पाये हैं उन्हें आगे मौका दिया जायेगा।

पलामू पुलिस ने सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, गये जेल

■ दो मोबाइल, एक देसी कट्टा और दो बाइक बरामद
■ नया लुटेरा गिर्रोह हो रहा था तैयार : एसपी

खबर मन्त्र संवाददत्ता

मेदिनीनगर/पाटन। पलामू पुलिस ने आठ सड़क लुटेरों को गिरफ्तार की है। इन लोगों के पास एक देसी कट्टा, लूट का दो मोबाइल, लूट में इस्तेमाल किया गया दो मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा पुलिस ने बरामद की है। ये सभी लुटेरे नया गिर्रोह तैयार कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि

...और क्या बोले एसपी



गुप्त सुचना एवं तकनीकी शाखा के सहयोग से घटना में शामिल अखिलेश सिंह पिता बंजनाथ सिंह ग्राम सीकी कला थाना पाटन गिरफ्तार हुआ। इसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। इसकी विशावदेही पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताया कि यह सभी लुटेरे नया गंग तैयार कर घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इन सभी का मास्टरमाइंड शिवशक्ति राम उर्फ राहित पासवान पिता रमेश पासवान ग्राम सिक्की कला है। जो पूरे घटनाक्रम

पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम बरसईता बंका नदी के समीप 17 जनवरी को देर शाम में लुटेरों ने हथियार का भय दिखाकर एक राहगीर से

मोबाइल एवं पैसे की लूट किया था। इस मामले में भुरकभोगी ने 18 जनवरी को पाटन थाना में मामला दर्ज कराया था। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए

एएसपी सह सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में पुलिस इस का गठन किया गया। टीम के बाद संभावित स्थानों पर पुलिस छापेमारी करती रही।

रहा अजय यादव भी घायल है। आसपास के लोगों ने उन्हें सीएचसी लाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉ राजेश कुमार ने उसे रेफर कर दिया। परंतु एंबुलेंस उपलब्ध नहीं रहने से उसे नहीं ले जाया जा सका। उपर, टक्कर मारने वाले बाइक को लेकर चालक फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास दल बल के साथ सीएचसी पहुंच शव को कब्जा में कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भेज दिया है।

हरिहरगंज : सीएचसी से नहीं मिली एंबुलेंस सड़क दुर्घटना में घायल युवक ने दम तोड़ा

खबर मन्त्र संवाददत्ता

हरिहरगंज पलामू। सीएचसी में एंबुलेंस उपलब्ध नहीं रहने से सड़क दुर्घटना में गंभीर सुबोध यादव (46) को रेफर होने के बावजूद तत्काल बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र नहीं ले जाया जा सका। फलस्वरूप उसकी वहीं तड़प कर मौत हो गई। मृतक खड्गपुर पंचायत के भांवर गांव के पारपहाड़ टोला का रहने वाला था। दुर्घटना शहर के हीरो बाइक एजेंसी के समीप एनएच 98 पर शुक्रवार को हुई। उक्त युवक गांव के ही एक युवक



के साथ बाइक से अपने घर से हरिहरगंज आ रहा था। इस दौरान हीरो एजेंसी के समीप तेज गति से आ रहे एक अन्य बाइक ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे सुबोध सड़क पर गिर गया। उसके कान से लगातार खून बह रहा था। बाइक चला

रहा अजय यादव भी घायल है। आसपास के लोगों ने उन्हें सीएचसी लाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉ राजेश कुमार ने उसे रेफर कर दिया। परंतु एंबुलेंस उपलब्ध नहीं रहने से उसे नहीं ले जाया जा सका। उपर, टक्कर मारने वाले बाइक को लेकर चालक फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास दल बल के साथ सीएचसी पहुंच शव को कब्जा में कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भेज दिया है।

हुसैनाबाद : विश्वकर्मा जयंती पर पूजे गये निर्माण के देवता

खबर मन्त्र संवाददत्ता

हरिहरगंज पलामू। डाक बंगला परिसर में शुक्रवार को भगवान विश्वकर्मा की जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनी। बड़े विश्वकर्मा युवा एकता मंच ने इसका आयोजन किया था। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना व हवन, भंडारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि नाई समाज के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर तथा विश्वनाथ शर्मा ने दीप



प्रज्वलित व फीता काटकर किया। एकता मंच ने सम्मान समारोह आयोजित कर समाज के प्रबुद्ध लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने ही शिल्पकला व वास्तुकला की शुरुआत की थी। उन्होंने

महादेव की पूजा से मिलती है भरपूर शक्ति : संग्राम सिंह

खबर मन्त्र संवाददत्ता

पाटन प्रखंड के कुंदरी ग्राम में शिव चर्चा का आयोजन किया गया। शिव चर्चा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पाटन के जिला परिषद सदस्य संग्राम सिंह, पूर्व जिला परिषद मुखेश्वर पांडे, राहिल राज उर्फ प्रकाश राम, अभय पांडे, राजा सिंह शामिल थे।

मौके पर शिव शिष्य महिला एवं पुरुष सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। मौके पर प्रकाश राम ने कहा कि आज

❶ पाटन प्रखंड के कुंदरी में शिव चर्चा का आयोजन

का जो यह परिवेश है वह धार्मिक और आत्मिक जीवन से भरा है। भगवान शिव के जो हमेशा आम जनों के प्रति लगाव रहा है वह कानिले तारीफ है। मौके पर जिला परिषद संग्राम सिंह ने कहा कि शिव गुरुओं के गुरु हैं, देवों के देव हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं भक्ति के नहीं। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तभी सृष्टि में दोनों का वास है।

सतबरवा : धावाडीह मुखिया ने किया स्कूली किट का वितरण

खबर मन्त्र संवाददत्ता

सतबरवा पलामू। धावाडीह ग्राम पंचायत के मुखिया रिकी यादव ने शुक्रवार को उक्तमित मध्य विद्यालय लोहरा पोखरी हरिजन टोला के छात्र-छात्राओं के बीच स्कूली किट का वितरण किया। इस दौरान मुखिया ने बच्चों के बीच कॉपी, कलम, इस्ट्रूमेंट बाँक्स, पेंसिल, रब्वर, तथा कट्टर का वितरण किया। मौके पर मुखिया रिकी यादव ने कहा कि राज्य सरकार कि यह अच्छी पहल है। सरकारी विद्यालयों में अधिकांश गरीब-असहाय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास कॉपी, कलम, पेंसिल समेत पढ़ाई करने की सामग्री खरीदने के लिए पैसे का अभाव रहता है। वे



स्कूली बच्चों को किट देते धावाडीह मुखिया व अन्य।

खास बातें : राज्य सरकार की पहल से अब गरीब-असहाय परिवार के बच्चों भी आसानी से शिक्षा पा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर राज्य सरकार काफ़ी पैसे खर्च कर रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चा ही देश का भविष्य है। अपने बच्चों को स्कूल प्रतिलिखित करें। बच्चों की पढ़ाई में अब गरीबी बाधा नहीं बनेगी। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल, रब्वर, ज्यामिति बाँक्स, रूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, साइकिल तथा खेलकूद के बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों में खेल सामग्री भी उपलब्ध करा रही है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका हिमला कुमारी, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रागिनी देवी, चंपा कुंवर, पूनम देवी समेत विद्यालय के छात्र-छात्रा उपस्थित थे। मजबूरी में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे का अभाव रहता है। वे

जिसके कारण उनकी बच्चों की पढ़ाई में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी।



सीआईडी बोकारो ने लगाया रक्तदान शिविर

बोकारो। सीआईडी बोकारो के द्वारा शहादत दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यतः सीआईडी उपाधीक्षक नीरज सिंह ने रक्तदान कर शुरूआत की। तत्पश्चात् निरीक्षक रेखा चौधरीए एसआई नवेंद्र शेखरए पुष्पा देवीएससीरभ सिंह, आलोक कुमार सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर उपाधीक्षक नीरज सिंह ने कहा कि यह रक्तदान शिविर महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर करना था परंतु समय की व्यस्तता के कारण आज किया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस ब्लड बैंक के डॉण यु मोहनजी, संजय शर्मा, रंजन सिंहए ब्रह्मदेव का सहयोग सराहनीय रहा।

जरीडीह बाजार में लगा निःशुल्क जांच शिविर

बेरमो। ध्वरीडीह बाजार, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में जनभागीदारी क्रियाकलाप के तहत सीसीएल बोकारो करगली क्षेत्र के सीएसआर मद से आज जरीडीह बाजार गुजराती स्कूल में निशुल्क ब्लड शुगर जांचए ब्लड प्रेशर जांच एवं दवा वितरण कार्यक्रम का मेडिकल जांच शिविर लगाया गया ए कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गयाए इस मौके पर डॉक्टर सजल भारतीए डॉक्टर के आर आर सिंहए डॉक्टर संजय सिन्हाए डॉक्टर अनुग्रह कुजुरए डॉक्टर रश्मि ने लोगों का जांच कर दवा दिएए मौके पर स्टफ ऑफिसर पसनल राजीव कुमार एरियाए मैनेजर ज्ञानेंद्र चौबे एसएसआर अधिकारी निखिल अखौरीए मुखिया कंचन देवीए समाजसेवी बबलू भगतए सीटू नेता विजय कुमार भोईए रमेश भाटियाए हितेश मेहताए अनिल मेहताए गोपाल डालमियाए राजू वोराए जयेश मेहता सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।

सेल ने जनवरी में रिकॉर्डतोड़ मासिक उत्पादन दर्ज किया

बोकारो। सेल ने जनवरी 2023 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया है। इस साल जनवरी 2023 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 17७2 लाख टन कच्चे इस्पात का मासिक उत्पादन दर्ज किया गयाए जो मार्च 2022 के पिछले सर्वाधिक मासिक उत्पादन की तुलना बहुत ही प्रभावशाली वृद्धि है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गांव की ओर चलो कार्यक्रम तीसरे दिन चला



बेरमो/ ललपनिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गांव की ओर चलो कार्यक्रम का जत्था तीसरे दिन शुक्रवार को भी चला।कार्यक्रम में जरकुंडा,घुट्टे, लोधी और करीखुर्द गांव का भ्रमणकर ग्रामीणों की सभाको संबोधित किया। सभाको संबोधित करते हुए झारखंड आंदोलनकारी इफतेखार महमूद ने कहा कि सहारा जैसा एलआईसी मेंभी पैसा डबने का संभावना दिखलाई पड़ रही है। एलआईसी का 18 हजार करोड़ अदानी समूह ने वापस नहीं किया। इससे एलआईसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं। जत्था का लोधी और करीखुर्द में जोदार स्वागत हुआ। करी में शहीद जीवन्ताल महतो के स्मारक पर मलयापर्ण कर श्रद्धांजलि दिया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला सचिव पंचानन महतो ने झंडोलतोलन किया। जत्था में यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय पुर्व अध्यक्ष आफताब आलम, राजद किसान प्रकोष्ठ महासचिव अरुण यादव सहित शाहजहां, अजीत महतो, अनवर रफी, मौजीलाल महतो, देवानंद प्रजापति, खुशींद आलम व अन्य मौजूद थे।

केंद्र सरकार की बजट आमजन हित में नहीं पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है : सीएम

खबर मन्त्र संवाददाता

दुमका। स्थापना दिवस समारोह को शिरकत करने के बाद शुक्रवार को रांची के लिए रवाना हुए। हवाई अड्डा पर केंद्र सरकार की बजट पर बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट दिखावे का है। बजट आम आदमी के लिए नहीं, पूंजीपति और उद्योगपति के लिए बना है। उन्होंने कहा कि बजट हर साल आता है। साल पूरा होने के बाद बजट की स्थिति पता चलेगा। अभी तो बजट आया ही है। सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसे कहां से आयेंगे। वर्तमान में अर्थव्यवस्था के हाथ-पैर फुले है। राज्य सरकार भी



लोगों की समस्याएं सुनते सीएम हेमंत सोरेन।

बजट पेश करेगी। कई चीजे अनुमाति होता है और कई चीजे वास्तविक भी होते है और केंद्र की बजट है। पूरे देश को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। अपने

सीसीएल ढोरी ने लगाया चांदो में निःशुल्क चिकित्सा शिविर

शिविर मे 500 लोगों को निःशुल्क जांच कर दवा का वितरण किया गया

खबर मन्त्र संवाददाता

बेरमो। सीसीएल केन्द्रीय अस्पताल ढोरी के सीजन्य से चांदो पंचायत भवन मे गुरुवार को सीसीएल ढोरी के सीएसआर योजना के तहत मेगा हेल्थ शिविर आयोजित की गई। जिसमे बतौर अतिथि ढोरी महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल के अलावे जिला परिषद सदस्य अशोक मुर्मू आदि ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। आयोजित शिविर मे सीएमओ डॉ अरविंद कुमारए आर एन झाएडॉ पुनीत गुप्ताए डॉक्टर रोहित



शर्माएडॉक्टर सदाबएडॉ अभिमन्यु साकेतएडॉक्टर श्वेता शरणएडॉक्टर शैलेयाए डॉक्टर भी सतीश ने डॉ राहुल रंजन आदि ने कुल 500 लोगो को निशुल्क जांच कर दवा वितरण किया। मुख्य अतिथि महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि सीसीएल सिर्फ कोलाका की उत्पादन नहीं करता है। कोलियरी के आसपास गांवो मे सीएसआर के

तहत शिक्षाए चिकित्सा सहित मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता है। मौके पर सीएसआर अधिकारी शैलेश कुमारए कार्मिक प्रबंधक ए के मिश्राए फार्मासिस्ट बी प्रतापएचंद्रकांत व अन्य कुमार सहित मनोज गंधुए हरि महतोए हुलास सिंहए मोहम्मद अफरजो जालम सहित कई अस्पताल कर्मी शामिल हुए।

कुरपनिया संत अन्ना उवि मे वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित

खबर मन्त्र संवाददाता

बेरमो। संत अन्ना उच्च विद्यालय कुरपनिया में शुक्रवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने झंडोलतोलन कर तथा बैलून उड़ाकर किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के क्षेत्र में बेरमो कोयलांचल को बहुत कुछ दिया है। हमारे पिता पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह शिक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रहते थे यह विद्यालय भी हमारे पूर्वजों की धरोहर है मैं हमेशा विद्यालय को सहयोग करता रहूंगा।



विधायक ने मैदान के स्टेज में शेट के लिए 10 लाख रुपये, बाउंड्री वॉल की मरम्मती के लिए 5 लाख रुपये, 10 कंप्यूटर विधायक मद से तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए बैड ड्रेस अपने मद से देने की बात कही। प्राचार्या सिस्टर

क्रिस्टीना टूटी ने स्वागत संबोधन में विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। विद्यालय में कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं के बीच 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, हाई जंप, लॉग

एमजीएम हॉस्पिटल में नवजात कन्या की 28 माताएं सम्मानित



जमशेदपुर। कन्या भ्रूण संरक्षण अभियान के तहत अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा शुक्रवार तीन फरवरी को एमजीएम हॉस्पिटल में 28 नवजात कन्या और उनकी माताओं को बेबी किट, कपड़े और फल देकर सम्मानित किया गया।

मौके पर कार्यक्रम संयोजिका पुजा अग्रवाल, सुरभि शाखा अध्यक्ष उषा चैवरी, रजनी बंसल आदि उपस्थित थीं। उन्होंने बताया कि सुरभि शाखा द्वारा शुक्रवार तीन फरवरी को एमजीएम हॉस्पिटल में 28 नवजात कन्या और उनकी माताओं को बेबी किट, कपड़े और फल देकर सम्मानित किया गया।

टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का एजीएम आज

खबर मन्त्र संवाददाता

जमशेदपुर। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की वार्षिक आम सभा एजीएम शनिवार 4 फरवरी को टाटा मोटर्स ओल्ड कैटीन हॉल में दोपहर एक बजे से बुलायी गई है। एमजीएम के एक दिन पूर्व यूनियन महासचिव आरके सिंह ने यूनियन कार्यालय में कमेटी मेंबरों एवं पदाधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की। बैठक में सभी कमिटी मेंम्बर, आफिस बेयरर, आरके सिंह फैंस क्लब के लोग और एक्टिव मेंम्बर्स उपस्थित हुए। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए महामंत्री आर के सिंह जी ने कहा कि हमारी वार्षिक आम सभा 4/2/23 को होने जा रही है



स्थान टाटा मोटर्स ओल्ड कैटीन कम्युनिशन हॉल में दिन में 1 बजे से आम सभा आरम्भ होगी। आप सभी कमिटी मेंम्बर और पदाधिकारी के माध्यम से हर एक साथी कर्मचारी को इस आम सभा मे आमंत्रित करता हूं। सभी को जो भी जिम्मेवारी मिली है उसे अच्छे तरीके से करते हुए आम सभा को

सफल बनाना है जिससे किसी को भी असुविधा ना हो और हमेशा की तरह एक टीम एक विजन पर काम करें। महामंत्री ने कुछ दिशा निर्देश दिए जिसके लिये सभी को कमिटी बना कर कार्यों की जिम्मेदारी दी गयी। मंच का संचालन अशोक उपाध्याय और धन्यवाद ज्ञापन अनिल शर्मा जी ने किया।

प्राप्त परिणामों को सामान्यीकरण की आवश्यकता सहित शोध की वैधता व विश्वसनीयता पर भी सारगर्भित रूप से प्रकाश डाला। यहां बता दें कि कोर्स वर्क कुलपति डॉ सोना झरिया मिंज के संरक्षण एवं समाज विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ जैनेंद्र यादव व डॉ टीपी सिंह के नेतृत्व में कोऑर्डिनेटर डॉ विनोद कुमार शर्मा के द्वारा नवंबर 2022 से सफलतापूर्वक संपादित किया जा रहा है। जिसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र व कॉमर्स के शोधार्थी अध्ययनरत है।

एक नजर में

राम का अर्थ ही है राष्ट्र का मंगल : शांडिल्य जी महाराज



बेरमो। चित्रकूट से आए हुए कथावाचक उज्ज्वल शांडिल्य जी महाराज ने श्रीरामकथा के पांचवें दिन राम वन गमन की कथा सुनाते हुए कहा कि राम का अर्थ है राष्ट्र का मंगल। यानि जिससे राष्ट्र का मंगल होता हैए वे राम हैं। राम ने पूरे भारतवर्ष से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए वनवास स्वीकार किया। पिता ने कभी मुँह खोलकर उन्हें वन जाने के लिए नहीं कहा। लेकिन धन्य हैं श्रीरामए जिन्होंने स्वयं कष्ट सहकर अपने पिता को कर्लंकित होने से बचा लिया। पुत्र का यही कर्तव्य है कि वह अपने माता.पिता को ईश्वर मानकर उनके वचनों का पालन करे। अयोध्या की सारी जनता श्रीराम के पक्ष में थीए लेकिन केवल मंथरा और कैकेयी के विरोध करने के कारण श्रीराम ने अयोध्या का सिंहासन टुकरा दिया। राजनेताओं को श्रीराम से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज के समय में एक सीट अधिक या कम हो जाने पर सरकार बन जाती है और गिर जाती है। किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करना ही आज की राजनीति का मुख्य उद्देश्य बनकर रह गया है। श्रीराम ने अपने पक्ष में बहुमत होते हुए भी राज्य सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। जब तक त्याग और सेवा की भावना मन में नहीं आएगीए तबतक शुद्ध राजनीति नहीं की जा सकती। श्रीराम की वनवास यात्रा को मंगलयात्रा कहा जा सकता है। राष्ट्र का मंगल करने के लिए ही उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया। इस यात्रा में श्रीराम ने समाज के पिछड़े लोगों को गले लगाया। निषादराज से मिले और केवट से अपने चरण धुलवाकर उसे गले लगाया। आगे चलकर चित्रकूट में कोलाए भील और वनवासियों के बीच जाकर निवास किया। जटायु को पिता का दर्जा दिया और शबरी को मां कहकर पुकारा। शबरी के जूटे बेर खाकर श्रीराम ने भक्ति के महत्व को बढ़ाया। इस प्रकार यह यात्रा राष्ट्र को एक करने की यात्रा थी। भरत चरित्र सुनाते हुए कहा कि जो सबके मन को रामप्रेम से भर देए उन्हें भरत कहते हैं। भरत जैसा भाई हो जाएए तो घर घर का झगड़ा ही समाप्त हो जाए। जैसे राम ने अपने अधिकार का राज छोड़ दियाए वैसे भी भरत जी ने भी अयोध्या के सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। आज एक हंच जमीन के लिए हाई कोर्ट जाने वाले भाईयों को भरत जी से शिक्षा लेनी चाहिए। रामायण का हरेक पात्र त्याग की भूति हैं। यहाँ राम ने त्याग कियाए सीताजी ने त्याग कियाए भरत जी ने त्याग कियाए हनुमान जी ने त्याग कियाए विभीषण आदि लोगों ने भी त्याग किया। जिसके जीवन में त्याग हैए सन्तोष है ए वही सुखी है। अन्यथाए करोड़ों अरबों की संपत्ति पाकर भी व्यक्ति असंतुष्ट और दुखी ही रहता है। धन जीवन के लिए अति आवश्यक हैए पर धन ही सबकुछ नहीं है। सुदामा के पास धन नहीं थाए तो भी वो सुखी थेए क्योंकि वे ईश्वर की भक्ति में लीन थे। यदि हम भी अपने जीवन में ईश्वर से संस्पर् मम से जुड़ जाएए तो सभी अभावों का नाश हो जाएगा। कथा के बीच में अनेक नए और मधुर भजन प्रस्तुत किए गए। हारमोनियम पर अविनाश और शशांक सानोदियाए तबला पर छत्रपाल बिसेनए बैंजो पर राजा और पैड पर सिद्धू ने संगति की। कथा में विश्राम में आरती का आयोजन किया गया और प्रसाद का वितरण हुआ।

फुसरो बाजार में चला प्रशासन का बुलडोजर तोड़ी गयीं अतिक्रमण कर लग्गीं दुकानें

बेरमो। बुलडोजर चलाते को लेकर उत्तर प्रदेश काफी एक समय काफी चर्चा में रहा करता है। यही बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता लिया गया और मुख्यमंत्री योगीजी को बनाया गया है। बेरमो प्रशासन भी लगातार बुलडोजर के कारण अब चर्चा में रहने लगी है। बताते चलें कि फुसरो नगर परिषद के द्वारा फुसरो में सौंदर्यकरण के कार्य को लेकर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा पेवर ब्लॉक पर दुकान लगाया जा रहा है। जिसे लेकर नगर परिषद के कर्मी लगातार आग्रह किये कि फुटपथ से दुकान को हटा लिया जाए। ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके। पर लोगों के द्वारा नहीं हटाने पर नगर परिषद फुसरो के द्वारा शुक्रवार को अतिक्रमण किये दुकानचरो के खिलाफ बुलडोजर चलाया और उन बुलडोजर से उनकी दुकानों को तोड़ा गया। जिससे बाजार में पूरी तरह से चर्चा का विषय बना रहा। नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश सिंह करते हैं बेहतर कार्य मगर अधिकारी करते हैं मनमानी-दुकानदार रवि कुमार, मंटू कुमार सविता देवी, सरोज कुमार ने कहा कि नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश सिंह के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है पर नगर परिषद के अधिकारियों के मनमानी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहा कि बहुत जल्द व्यवसायी नगर परिषद अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह से मिलकर जगह उपलब्ध कराने का अपील करेंगे ताकि हम लोगों को भी फुटपाथ पर दुकान लगाने की नीव न हो।

जमशेदपुर में 7 फरवरी से 72 घंटे बंद रहेंगी जनवितरण प्रणाली की दुकानें

जमशेदपुर। भारत सरकार की नीतियों और जन वितरण विक्रेताओं के लॉबिंग माँगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर सात से नौ फरवरी (72 घंटा) तक जमशेदपुर की दुकानें भी बंद रहेंगी। इस संबंध में फेवर प्राइस डीलर एसोसिएशन पुर्वी सिंहभूम जिला कमिटी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर जानकारी दे दी गयी हैं। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मोहन साव पारस, महासचिव प्रमोद गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष नगेश जायसवाल ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञापित जारी कर बताया कि 72 घंटा दुकानें बंद रखने की जानकारी प्रधानमंत्री, केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री समेत संबंधित विभाग के उच्च पदाधिकारियों को पहले ही दे गी गयी हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान देश के कुल 5 लाख 34 हजार जनवि प्रणाली दुकानदार और महिला स्वयं सहायता समूह गुप के सदस्य इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि हमारी मांग राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर तक वर्ष 2016 से लॉबित है जिस पर सरकार अनदेखी कर रही है। इस बात कई बार सरकार से गुहार लगाई गई। किन्तु, सरकार द्वारा उसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

पुलिस ने पूछताछ को भाजपा नेता को लिया हिरासत में

बेरमो। पिछरी उत्तरी पंचायत अंतर्गत प्योर ढोरी मोड स्थित मतुटांड में गुरुवार को पीसीसी पथ निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय भाजपा नेता मुकेश मिश्रा और संवेदक महावीर तुरी के बीच जमीन विवाद हो गया। जिसके बाद मामला गहरा गया। मौके पर पेटरवार थाना एसआई चन्दन भारती पहुँचे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। मुकेश मिश्रा ने कहा कि मुझसे बिना पूछे मेरे जमीन में सड़क निर्माण के लिए शिलापट्ट लगाया गया जो अनुचित है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मोहन साव पारस, कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनुप सिंह ने पीसीसी पथ निर्माण का शिलान्यास करने से इंकार कर दिया। वही प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरमो विधायक श्री सिंह ने सरकारी कार्य मे बाधा पहुँचाने व दुर्व्यवहार का मामला पेटरवार थाना में दर्ज करवाया। यहां उपस्थित ग्रामीणों से आवेदन लिखवाया और पेटरवार पुलिस को मुकेश मिश्रा को अविलंब गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पेटरवार पुलिस ने तांती से मुकेश मिश्रा को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गयी।



सार्थक प्रयास

मो दी सरकार के सामने महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं खड़ी हैं। दूसरा इस वित्तीय वर्ष में बजट घाटा 6.4 रहने की बात कही गई है, उसे कम करने का दबाव सरकार पर रहेगा। सवाल यह भी है कि एक साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात तथा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में उतार-चढ़ाव के बीच क्या हम विकास दर के लक्ष्य सहजता से हासिल कर पायेंगे? वैसे अच्छी बात है कि सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के निर्माण पर होने वाले खर्च में तैत्तीस फीसदी की वृद्धि करके इसे साढ़े दस लाख करोड़ कर दिया है। निस्संदेह इससे जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी,वहीं बाजार में निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की मांग बढ़ने से बाजार को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 फीसदी की वृद्धि को रोजगार व अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम कहा जा रहा है। वहीं मध्यम वर्ग को आ्यकर में राहत देकर सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। दूसरी ओर खेती के लिये कर्ज, डेयरी, पशुपालन तथा मछली पालन को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं बजट का हिस्सा हैं। साथ ही बुजुर्गों-महिलाओं को राहत देने वाली घोषणाएं बजट में हैं। खासकर महिला सम्मान बचत पत्र स्क्रीम उल्लेखनीय है। निस्संदेह, नई टेक्स व्यवस्था में सात लाख तक की आय को करमुक्त रखने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। पहले कर बचाने के लिये लोग पीएफ, बीमा पॉलिसी तथा म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे, इसमें अब कमी आएगी। बहरहाल, देश की जीवन रेखा रेलवे के लिये 2.40 लाख करोड़ का निवेश स्वागतयोग्य कदम है। इसी तरह कृषि कर्ज के लिये लक्ष्य बीस लाख करोड़ करने को किसान एक राहत की तरह देख सकते हैं।
देखना होगा कि आने वाले समय में क्या दिशा होती है।

शातिर मक्की पर अंकुश

पोर्ट से लेकर एनर्जी सेक्टर में कारोबार करने वाले अदाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदाणी दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में पिछड़ गए हैं। वह अब सबसे अमीर एशियाई या भारतीय नहीं हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी कारोबारी मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी पिछले साल अप्रैल में अदाणी से पिछड़ गए थे। अदाणी एक सप्ताह पहले फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति थे और वह बुधवार को 15वें स्थान पर फिसल गए। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट जारी है। फोर्ब्स वेबसाइट के अनुसार, 83.7 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी सूची में 9वें स्थान पर हैं। अदाणी की संपत्ति में पिछले साल 44 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था और पिछले एक सप्ताह में उनकी संपत्ति तेजी से घटी है। वह इस समय वैश्विक अरबपतियों की सूची में 75.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 15वें स्थान पर हैं। पिछले एक सप्ताह में अदाणी समूह की कंपनियों ने 90 अरब अमेरिकी डॉलर गंवा दिए हैं। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बुधवार को अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर 26.70 प्रतिशत टूटे। अदाणी पावर पांच प्रतिशत, अदाणी टोटल गैस 10 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट एंड एसईजेड 17.7 प्रतिशत टूटा। निश्चित तौर पर अपने एफपीओ वापस लेने से लेकर हिंडनबर्ग विवाद के बाद अडानी परेशानी में हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई थी जब उनकी समूह कंपनियों में लगातार विकास हो रहा था। दुनिया में शीर्षतम धनी व्यक्तियों के नाम में शुमार अडानी की स्थिति में नकरात्मक बदलाव हुआ है।

राम की शक्ति

स्वामी सत्यानंदजी परमहंस

रावण की सभा में अंगद ने जिस प्रकार पांव मारा उससे रावण का मुकुट उड़कर शिविर में गिरा। लोगों को अचंभा हुआ कि लंका की ओर से कौन सी चमकती वस्तु आ रही है। लेकिन वह आकर श्रीराम के पास उनकी सेवा में हाजिर हो गयी थी। जब उनके पास आ गयी तो लोगों ने समझा वह दिव्य और देवी शक्ति थी जो श्रीराम के लिये थी। अंगद वापस हो गये और रास्ते में वे यह विचार करते आ गये कि अब युद्ध के सिवाए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सेना की छावनी में लौटकर लंका का सारा वर्णन रावण की सभा में जो कुछ हुआ श्रीरामजी को बताया और कह दिया प्रभु आक्रमण की तैयारी कीजिए इसके सिवा हमलोंगे के पास अब दूसरा रास्ता नहीं है।

प्रसंग का अध्यात्म

श्रीराम जो कुछ नीति है उसका सहारा ले रहे थे। साम, दाम, दंड

भेद यही नीति होती है। इसलिये जो नीति लेकर चलते हैं वे महान माने जाते हैं। यद्यपि राम जानते थे कि रावण सीता को वापस नहीं करेगा फिर भी संसार में आदर्शउपस्थित करने के लिये उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा। हर कीमत पर सीता को प्राप्त करना है।

वह उनकी अपनी शक्ति थी। जैसे परमात्मा की शक्ति परा शक्ति होती है वैसे ही राम की शक्ति सीता थी। सीता राम दोनों मिलकर परमात्मस्वरूप होता है। यह जीव की जो परा शक्ति है जब वह लुप्त हो जाती है तो यह जीव कहा जाता है। अब वह शिव नहीं रहता है। परमात्मस्वरूप इसका समाप्त हो जाता है अहंकार के कारण। अहंकार रूपी रावण ही इसका हरण करता है। परा का मतलब प्रेम होता है और जब प्रेम का हरण हो जाता है उसके जगह पर द्वेष पैदा हो जाता है और द्वेष अशांति देता है।

(ब्रह्म विद्यालय सह आश्रम)



लेटर टू एडिटर

उम्मीद पर खरा

मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पूरी तरह से चुनावी चाशनी में ढूँढा संतुलित बजट है, जिसमें आम आदमी की ज्यादातर जरूरतों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है और कहा जा सकता है कि यह चुनावी ही सही पर आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरता बजट है। निश्चित तौर पर यह बजट आगे आने वाले दिनों में विकास को सहायक होगा।

- **रवि, रांची**

जय जय अडानी

मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने स्टील दिया, मोदी ने रेल, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने काला धन दिया जो अडानी की कंपनियों में लगा। घोटाला हुआ तो मोदी खामोश।अडानी-मोदी गठजोड़ ने एलआइसी का ये हाल किया। पहले नारा था जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।अब नारा होगा। 'क्या लेकर आए थे? क्या लेकर जाओगे? -**सोनी, खूट्टी**

अभिव्यक्ति

समरसता के अग्रदूत संत शिरोमणि गुरु रविदास

राम मैं पूजा कहां चढ़ाऊं। फल अरु फूल अनुप न पाऊं ॥

मन ही पूजा मन ही धूप । मन ही सेऊं सहज सरूप

पूजा अरचा न जानू तेरी । कह रैदास कवन गति मोरी ॥

उपरोक्त पंक्तियाँ हमे दर्शन की उस अलौकिक सत्य से अवगत कराती है, जो हिन्दू चिंतन का सार रहा है। जब विश्व में सभ्यता तो दूर लोग समज के आचरण में विचरण करते थे, तब भारत के महान ऋषि मुनिओ ने जिस समाज की स्थापना की थी, उसका झलक इस पद में उपलब्ध है जिस भारत की कल्पना ही, कर्म के सर्वोच्च मानदंडो पर स्थापित हुआ था, आज उसे जाति से जोड़कर, भारत को, हिन्दू को, कमजोर करने की, इसे तोड़ने की,दलित बंचित जैसे अलगाव की भाव को भरकर उन्हें मतान्तरित करने की गहरी साजिश रची जा रही है.कभी मनुस्मृति, तो कभी रामचरितमानस, तो कभी संयुक्त परिवार के भाव को, खंडित कर, हिन्दू समाज में विलगाव पैदा करने की, वामपंथी और सेमेटिक अहिंदू की वैश्विक कारगुजारिया जगजाहिर है .हिन्दू धर्म के महान संरक्षकों को भीम-मीम जैसे इंद्रजाल में फांस तोड़ने का भी अथक प्रयास जारी है. उपरोक्त कालजयी रचनाओं के दर्शन के जन्मदाता रहे समरसता के सहज समर्थक और हिन्दू चिंतन के पथप्रदर्शक संत शिरोमणि गुरु रविदास ।

संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा 1376 ईस्वी में उत्तर प्रदेश अवस्थित देश की सांस्कृतिक चेतना के कालजई विरासत नगर वाराणसी शहर के गोबर्धनपुर नामक गांव में हुआ था। संत जी के पिता का नाम श्री संतोष दास और पूजनीय माता जी का नाम श्रीमती कर्मा देवी था. ऐसे भक्त प्रवर के दादाजी का नाम श्री कालूदास जी और दादी जी का नाम श्रीमती लखपति देवी जी था। रविदास जी का गृहस्थ जीवन उनकी सहधर्मिणी श्रीमती लोना देवी जी के साथ शुरू होती जो एक आदर्श परिवार के रूप में स्थापित रही। इनके पुत्र का नाम श्री विजय दास जी था। संत शिरोमणि श्री रविदास जी साम,दाम,अर्थ और दंड सारे हथकंडे को अपनाया जाता था.उस विकट परिस्थित में ऐसे संत का अभ्युदय हुआ था.संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी,समाज के लाखों लोगों के तारणहार के रूप में इनको देखी जाती थी. जिसके चलते उनके लाखों



-योगी आदित्यनाथ



- हेमंत सोरेन, सीएम

आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरा बजट?

योगेश कुमार गोयल

सबसे लंबा बजट भाषण देने, परम्परा में बदलाव और पेपरलेस बजट जैसे कई रिकॉर्ड कायम करने के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक फरवरी को अपना पांचवां आम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार का 11वां और केन्द्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पांचवां बजट था। इस बजट पर पूरे देश की नज़रें केन्द्रित थी क्योंकि आम आदमी को इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें थी।

दरअसल माना जा रहा था कि इस वर्ष होने जा रहे कई विधानसभा चुनावों के साथ-साथ अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बजट में आम जनता के लिए राहतों का पिटारा खोला जाएगा

और ये उम्मीदें बेकार भी नहीं गईं।सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपये के खर्च का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें सरकार की पावतियां केवल 23.3 लाख करोड़ रुपये की ही होंगी और इस भारी-भरकम घाटे को पूरा करने के लिए सरकार विनिवेश के जरिये करीब 51 हजार करोड़ रुपये की धनराशि जुटाएगी जबकि उसे 15 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के बाजार से ऋण लेने पड़ेंगे। बाकी की कमी को लघु बचतों के जरिये पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बजट के प्रावधानों को देखते हुए प्रतीत होता है कि सकल विकास वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपये की धनराशि पूंजीगत खाते से खर्च करके सरकार देशभर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन को भी

बढ़ावा देना चाहती है। छोटे और मध्यम उद्योगों को शुल्क ढ़ांचे में रियायतें प्रदान कर सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि अपने उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ यह क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में भी सहभागी बने।

इस बार के केन्द्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आम जनता को आयकर दरों में राहत दिया जाना है। दरअसल बहुत लंबे समय से आयकरों दरों में बदलाव की मांग की जा रही थी। नई कर व्यवस्था में आयकर

सीमा में छूट को पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख किए जाने से न केवल छोटे करदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी तय है, वहीं इससे मिशन 2024 मोड में जुटी भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था भी लागू रहेगी जिसके तहत अभी भी 80सी, पीएफ, आवासीय कर्ज के मूलधन और ब्याज के भुगतान इत्यादि पर छूट हासिल की जा सकती है, जो नई कर व्यवस्था में नहीं मिलेगी लेकिन इस छूट के बगैर भी सात लाख तक की आय का करमुक्त होना करोड़ों करदाताओं को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। दरअसल करदाताओं को पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही क्योंकि तमाम अपीलों के बावजूद अधिकांश

लोगों ने इसे नहीं अपनाया था।

बजट में महिलाओं और बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखने का प्रयास किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों की बचत सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने, गैर सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण पर मिलने वाली छूट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की घोषणा इत्यादि सियासी दृष्टिकोण से भाजपा के प्रति सकारात्मक माहौल में वृद्धि करने में सहायक साबित हो सकती हैं। बजट में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो स्पष्ट तौर पर इस बार के बजट में भाजपा सरकार की ओर से राजनीतिक संदेश देते प्रतीत होते हैं।



epaper.khabarmantra.net



खास बात

आसाराम को सजा

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आसाराम पिछले दस साल से पहले ही जेल में बंद है। अब उसे उम्र कैद की सजा हो गई है। 81 वर्ष का आसाराम पता नहीं अभी कितने साल और जिंदा रहेगा? जितना व्यभिचार और बलात्कार उसने किया है, उस हिसाब से उसे काफी लंबी उम्र मिल गई है। साधु-संत और मौलवी-पादरियों का पाखंड रचा कर जो धूर्त लोग भक्तों को बेवकूफ बनाते हैं, वे इतने ऊँचे कलाकार होते हैं कि उन्हें जेल में भी सारी सुविधाएं लिफंदर लोदी ने कहा कि यदि वे मुसलमान नहीं बनेंगे तो उन्हें कठोर दंड दिया जायेगा. ऐसा कहा जाता है कि जेल में भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें दर्शन दिये और कहा कि धर्मानिष्ठ सेवक ही आपकी रक्षा करेंगे। अगले दिन जब सुल्तान सिकंदर नमाज पढ़ने गया तो सामने रविदास को खड़ा पाया। उसे चारो दिशाओं में संत रविदास के ही दर्शन हुये. यह चमत्कार देखकर सिकंदर लोदी चबरा गया. लोदी ने तत्काल संत रविदास को रिहा कर दिया और माफी मांग ली।

अपने धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा थी समरस हिन्दू समाज के महान नायक का। संत रविदासजी केचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे। भक्ति का मतलब यह नहीं की वे दिनरात पूजा-पाठ में लीन रहते थे, लेकिन उनको अपने हिन्दू-दर्शन, हिन्दू-चिंतन, पर ग्वं था नौ वर्ष की नन्ही उम्र में ही परमात्मा की भक्ति का इतना गहरा रंग चढ़ गया कि उनके माता-पिता भी चिंतित हो उठे. उन्होंने उनका मन संसार की ओर आकृष्ट करने के लिए उनकी शादी करा दी और उन्हें बिना कुछ धन दिये ही परिवार से अलग कर दिया फिर भी रविदासजी अपने पथ से विचलित नहीं हुए. संत रविदास जी पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग झोपड़ी बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर-भजन तथा साधु-सन्तों के सत्संग में व्यतीत करते थे।उनकी भक्ति की अद्वितीय धारा को जानकर उस समय के प्रकांड विद्वान और समरस हिन्दू चेतना के प्रखर प्रणेता स्वामी रानानंद ने बालक रविदास को अपना शिष्य बनाया. स्वामी रानानंदाचार्य वैष्णव भक्तिधारा के महान संत थे. संत कबीर, संत पीपा, संत धन्ना और संत रविदास उनके शिष्य थे. उनका स्पष्ट मत था कि :- हिन्दवः सोदरा सर्वे न हिन्दू पतितो भवेत्।

ऐसा नहीं है कि ये पाखंडी सिर्फ हिंदुओं के बीच ही होते हैं। यूरोप के ईसाई इतिहास का एक लंबा समय द्धअंधकार युगह्म माना जाता है, क्योंकि पोप तक को इन काले धंधों में अपना मुंह काला करते पाया गया है। कोई मजहब इस तरह के धूर्तों से मुक्त नहीं है, क्योंकि सारे धर्म, संप्रदाय और मजहब अंधविश्वास पर आधारित हैं।

दुनिया को ठगने का यह सर्वोत्तम उपाय है। जो साधु-संत-संन्यासी, मुनि, पादरी, मौलवी आदि पवित्र और सत्यनिष्ठ हैं, उनके दुख का अनुमान में लगा सकता हूँ लेकिन उनसे मेरी शिकायत यह भी है कि ऐसे मामलों पर वे चुपी क्यों साधे रहते हैं? वे इन पाखंडियों के खिलाफ अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? क्या वे अपने आप से डरे हुए हैं?





बीआरसी बरही के कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखापाल का प्रभार छिना

हजारीबाग। बीआरसी बरही के कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखापाल संजय राणा का प्रभार छिन गया है। डीइओ सह झारखंड शिक्षा परियोजना हजारीबाग के डीपीओ उपेंद्र नारायण ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर संजय राणा को इचाक और पदमा का भी प्रभार दिया गया था। लेकिन उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया उन्हें शोर्काज किया गया था लेकिन उसमें भी लेखापाल का जवाब भी संतोषजनक नहीं मिला। उनके जवाब से यह पता चला कि वह सिर्फ बरही में ही कायों को प्राथमिकता देते रहे हैं। पदमा और इचाक में उनके कार्य संतोषजनक नहीं हैं। ऐसे में उन्हें कस्ट्यूबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चुरचू के लेखापाल प्रेमचंद राम को प्रभार देने का आदेश दिया गया है। झर आरजेडीई सुमनलता टोपनो बलिवार में भी कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखापाल संजय राणा के मामले पर संज्ञान लिया है। आरजेडीई से झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव कुमार सत्यपाल ने शिकायत की थी। आजेडीई ने डीइओ से कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखापाल संजय राणा से संबंधित जांच प्रतिवेदन मांगा है।

इवीएम का प्रथम रैंडमाइजेशन संपन्न
रामगढ़। 123 रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन 2023 के महेनजर शुक्रवार को जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा, वरीय पदाधिकारी निर्वाचन समन्वय कोषांग सह अपर समाहर्ता नेलसम एघोन बागे, निर्वाची पदाधिकारी 23 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम (कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट, विविपैट) का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया।

दो बच्चों के जन्म में तीन साल का रखें अंतराल : सत्यवंती भदानीनगर (रामगढ़)। रिभर साईड भुरकुंडा स्थित बहु बाजार दोल्लला पंचायत के आंगनवाडी केंद्र दुंदुबा, शिवनगर बीटीटीआई एवं पुराना थाना मोहल्ला में सास-बहू-पति एवं ग्रामीणों का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया सत्यवंती देवी ने की। सम्मेलन में मुखिया एवं सहिया द्वारा उपस्थित सास, बहु, पति एवं ग्रामीणों कई महत्वपूर्ण जानकारीयां देते हुए सुझाव दिया कि दो बच्चों के जन्म के समय कम से कम तीन साल का अंतराल अवश्य रखें। बताया गया कि इसके लिए सरकार द्वारा निशुल्क रूप से गर्भनिरोधक गोलिएां, निरोध एवं अन्य सामग्री मुफ्त में दिया जाता है। कहा गया कि हम दो हमारे दो के तर्ज पर सुखी परिवार के लिए दो बच्चों के बाद बिना लिंग भेद किये परिवार नियोजन का अपरेशन अवश्य करवा लें। साथ ही जच्चा-बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती के लिए स्स्कारम दारु दिए जा रहे सुझाव एवं अन्य योजनाओं का बिना संकोच के लाभ लें। सम्मेलन में मुखिया स्तयवंती देवी द्वारा दर्जनों महिलाओं के बीच बर्तन का वितरण किया गया। मौके पर सहिया रंजु सिंह, तिलोत्तमा तिवारी, मंजू देवी, आंगनवाडी सेविका किरण सिंह, प्रेमी सलोनी तिर्की, हिना देवी सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।

देवरिया पैक्स का उद्देश्य ही अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है : सनोज बासल (रामगढ़)। देवरिया पैक्स कम्प्यूटर ऑपरेटर सनोज कुमार ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि बडकागांव विधायक अंबा प्रसाद के प्रयास से भदानीनगर क्षेत्र के देवरिया में धान कृय केन्द्र खुलने से किसानों का काफी लाभ पहुंच रहा है। सनोज कुमार ने कहा कि धान कृय केन्द्र खुलने से मात्र 45 दिनों में क्षेत्र के करीब 200 किसानो ने 2050 रुपये प्रति हिल्टल सरकारी दर से 5202 हिल्टल धान बेचा है। इसमें अधिकशः किसानो को आधी राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि का भुगतान जल्द ही कर दिया जायेगा।

सांसद जयंत सिन्हा ने बजट को दूरदर्शी बताया, कहा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करेगा अमृत काल का यह बजट



वित्त मंत्री व जयंत सिन्हा ।

खबर मन्त्र संवाददाता

हजारीबाग/रामगढ़। हजारीबाग व रामगढ़ के पत्रकारों के साथ बजट को लेकर शुक्रवार को हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने वर्चुअल प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेसवार्ता के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जयंत सिन्हा ने कहा कि अमृत काल का बजट बेहद दूरदर्शी और संतुलित है। देश के सभी हितधारक इसकी प्रशंसा व सराहना कर रहे हैं। भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी सरकार जो बजट लायी है, उसकी विश्व में सकारात्मक चर्चा हो रही है। उन्होंने बजट के 5 मुख्य बिंदु विस्तार से बताये। अर्थव्यवस्था की स्थिरता, टैक्स में छूट, निवेश को बढ़ावा, हरित विकास और सहकारी

क्षेत्रों को प्रोत्साहन। साथ ही रोजगार व महंगाई के विषय पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। श्री सिन्हा ने कहा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से विश्व भर में बड़ी अस्थिरता है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने परिस्थितियों को बड़ी ही कुशलता से संभाला है। इस बजट में टैक्स रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर मध्यम वर्ग को बड़ी रहत दी गयी है। इससे लोगों को काफी बचत होने वाली है। इस बजट में निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33% की वृद्धि कर उसे 10 लाख करोड़ किया गया है। इससे रोजगार व उत्पादन में वृद्धि होगी। कहा कि मोदी सरकार देश भर में निवेश को बढ़ावा दे रही है। देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाईअड्डे व अन्य

बोले सांसद, बजट पूरी तरह जनहितकारी

रामगढ़। भारत अगले 30-40 वर्षों में कोयले का उपयोग कम कर देगा। इसलिए इस बजट में पर्यावरण के प्रति हरित विकास के लिए 19,700 करोड़ के हाइड्रोजन अभियान शुरू करने की घोषणा की गयी है। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रति गहनता से काम करने के लक्ष्य में उठाए जा रहे कदमों में से एक है। मोदी सरकार की सोच हर किसी को बेहतर साधन देने की है। सहकारी क्षेत्रों को भरपूर सहयोग व प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज, ऋण व बीज समेत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार देश भर में निवेश को बढ़ावा दे रही है। देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर,

हवाईअड्डे व अन्य परियोजनाओं का विस्तार किया जायेगा, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। केंद्र सरकार की कुशल नीतियों के परिणामस्वरूप आज देश में महंगाई नियंत्रण में है। जो महंगाई दर पहले 6 से 7 प्रतिशत थी, वो अब 5 प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। सरकार जितना निवेश करेगी, हमारी उत्पादन क्षमता उतना ही बढ़ेगी। देश ज्यादा उत्पादन करेगा तो महंगाई दर पर और नियंत्रण आएगा। आज विश्व के बड़े देशों में महंगाई दर 8 से 10 प्रतिशत है। वही भारत में महंगाई नियंत्रित है। यह सही नीतियों वाली विकासोन्मुख सरकार की दशाता है। कहा कि मुझे विश्वास है कि अमृत काल का बजट आत्मनिर्भर भारत के

संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दूरदर्शी बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका प्रयास के जरिए जनभागीदारी के साथ देश के बहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं समेत हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। साथ ही यह आने वाले वर्षों में न्यू इंडिया के निर्माण को विस्तार और 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को गति देगा। इसमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने हेतु हर प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए मैं हजारीबाग व रामगढ़ वासियों की ओर से प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

परियोजनाओं का विस्तार किया जायेगा, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। केंद्र सरकार की कुशल नीतियों के

परिणामस्वरूप आज देश में महंगाई नियंत्रण में है। जो महंगाई दर पहले 6 से 7 प्रतिशत थी, वो अब 5 प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। कहा

कि मुझे विश्वास है कि अमृत काल का बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बीआरसी होलंग में दी गयी शिक्षिका को विदाई



विदाई समारोह में शामिल लोग ।

खबर मन्त्र संवाददाता

टाटीझरिया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय टाटीझरिया में कार्यरत वरीय शिक्षिका रीता गुप्ता की 35 वर्ष सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने के अवसर पर एक फरवरी 2023 को उत्क्रमित उच्च विद्यालय झरपो के कुशल नेतृत्व दृढ़ इच्छाशक्ति के तहत विद्यालय प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार दिपक, दारू प्रखंड के मध्य विद्यालय महेशरा शिक्षक

मंजर सर के अथक प्रयास से विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड के बीआरसी होलंग प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टाटीझरिया बीडीओ साइनी तिग्गा, बीओ रामेश्वर दांगी, पूर्व जिला परिषद सह 20 सूत्री अध्यक्ष रवि सिंह भाजपा नेता बाटेश्वर मेहता थे। जिनको संथाली गीत झाल मांदर वाद्य यंत्रों के धुन पर स्वगत किया गया।

खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य : एसडीओ

प्रखंड कार्यालय में 5 फरवरी को लगेगा विशेष कैंप

खबर मन्त्र संवाददाता

बरही। अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी खाद्य कारोबारियों के लिए बरही प्रखंड कार्यालय में 5 फरवरी 2023 को विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस संबंध में कार्यालय अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बरही द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बताया कि बिना लाइसेंस



एसडीओ बरही ।

रजिस्ट्रेशन का कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा 6 माह का कारावास एवं 5 लाख

रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए तक हो, उन्हें भी 100 रुपए के शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जिसमें आवेदक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज लाना अनिवार्य है। वहीं जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 12 लाख से अधिक है, उन्हें लाइसेंस शुल्क 2000 प्रति वर्ष, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के लिए एवं मैनिफेकचर को प्रति वर्ष 3000 रुपए के शुल्क के साथ दे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन

करवाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रोपराइटर डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर की संपूर्ण विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि के साथ अन्य दस्तावेज अनिवार्य है। इस कैंप में सभी खाद्य कारोबारियों खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता, वितरक, विनिमाता, होटल, रेस्टोरेंट, बूचड़खाना, मछली दुकान, कपड़ा दुकान, सब्जी व फल दुकान, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दुकान, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैटेन, स्टोर रूम के संचालक प्रोपराइटर, मालिक, पार्टनर इत्यादि को सूचना देकर दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन मांगे गए हैं।

भुरकुंडा (रामगढ़)। जवाहर नगर मैगजिन साइड में वषों पुराना चबूतरा का जीर्णोद्धार होने पर शुक्रवार को धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान 24 घंटे के अखंड-हरिकीर्तन का शुभारंभ हुआ। पुरोहित रामअवतार पाण्डेय द्वारा पूरे विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा-अर्चना कराई गई। पूजा में बतौर यजमान मुकेश राउत और उनकी पत्नी गुड़िया देवी शामिल हुई। पूजा के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही अखंड-कीर्तन की शुरुआत हुई। इस दौरान हरे राम हरे कृष्ण के भक्ति उद्धोषों से पूरा क्षेत्र गुंजा रहा।

जनता से किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन : संजीव



बैठक को संबोधित करते मुख्य अतिथि संजीव बेदिया ।

खबर मन्त्र संवाददाता

भुरकुंडा (रामगढ़)। झारखंड मुक्ति मोर्चा भुरकुंडा पंचायत कमेटी का शुक्रवार को हॉस्पीटल कॉलोनी मैदान में पूर्णगठन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झामुमो के केंद्रीय सचिव सह राज्य परिवहन प्राधिकार सदस्य संजीव कुमार बेदिया उपस्थित थे। मौके पर संजीव बेदिया ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांव के गरीब जनता के लिए कई योजनाएं

धरातल पर उतारा है। जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने कई स्कीम व कल्याणकारी योजनाएं लाई है ताकि अधिक से गरीब लाभुकों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की ही सरकार बनेगी। झामुमो अपने बहुमत की सरकार बनायेगी। जिसमें 50 से ज्यादा सीट विधानसभा में झामुमो की होगी।

उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ दी गयी विदाई

नौ पुलिस पदाधिकारियों का हुआ स्थानांतरण

खबर मन्त्र संवाददाता

बरही। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौधे के निर्देश पर नौ पुलिस पदाधिकारियों का अन्य थाना में स्थानांतरण होने पर थाना परिसर में विदाई सह स्वागत समारोह आयोजित किया गया। जहां सभी स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया और बरही थाना में योगदान देने वाले पुलिस पदाधिकारियों को बूके देकर स्वागत किया गया। समारोह की अध्यक्षता पु.नि. सह थाना प्रभारी सह पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष ललित कुमार ने किया। बरही थाना से एसआई दिनेश कुमार, ओमप्रकाश, आदित्य कुमार, एसएसआई बुधराय हेन्ड्रम,



विदाई समारोह में शामिल पुलिस अधिकारी ।

देवेंद्र सिंह, नवीन कुमार पांडेय, ओमप्रकाश कुमार, अरविंद कुमार मिश्र का स्थानांतरण दूसरे थाना में हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी पुलिस पदाधिकारियों ने बारी बारी से अपने अपने विचारों को रखा। एसआई दिनेश कुमार व आदित्य कुमार ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी ललित कुमार के दिशा-

निर्देश में काफी कुछ सीखने को मिला पुनि सह थाना प्रभारी ललित कुमार ने कहा कि 2017 से पुराना 47 मामलों का निष्पादन तमाम पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से हो पाया। बरही की पुलिसिंग को बेहतर बनाने में सबों का सहयोग मिला। उन्होंने बरही थाना में आए नए पुलिस पदाधिकारियों का भी स्वागत किया।

एक नजर में

ऑटो रिक्शा चालकों ने विधायक उमाशंकर से मिलकर जल्द स्वस्थ होने की कामना की



विधायक से मिलते ऑटो चालक ।

खबर मन्त्र संवाददाता

बरही। झारखंड निवेदन समिति के सभापति सह विधायक उमाशंकर अकेला का दिल्ली में हो रहे आंख के उपचार के दौरान कोल्हुआकला पंचायत के ग्राम करगईयो के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनसे स्वास्थ्य के संबंध में अवगत होकर उनके जल्द स्वास्थ्य होने का कामना किया।बताते चले कि सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली में ऑटो

रिक्शा चालक का काम कर रहे हैं। ऑटो चालकों ने झारखंड भवन दिल्ली में विधायक से शिष्टाचार मुलाकात किया और श्री अकेला के जल्द स्वस्थ होने की कामना किया। कार्यकर्ताओं के अपार जनसमर्थन से विधायक उमाशंकर अकेला काफी खुश नजर आए। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद एवं प्यार को वह कभी नहीं भूलेंगे। मौके पर दर्जनों लोग मौजूद थे।

चट्टीबारियातु कोल माइंस से कोयला लोड करने जा रहे वाहनों को रैयतों ने खदेड़ा

केरेडारी। एनटीपीसी चट्टीबारियातु कोल माइंस से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को भी ट्रॉसपोर्टिंग का कार्य को रोकना, वही कोयला लोड करने जा रहे लगभग दर्जनों वाहनों ने खदेड़ दिया। वही चट्टीबारियातु, जोरदाग, पगार गांव के विस्थापितों को कहना है की जब तक एनटीपीसी रैयतों मांग पूरी नहीं करती तब तक ट्रॉसपोर्टिंग का कार्य बाधित रहेगा। आगे रैयतों ने कहा कि एनटीपीसी बहुत आसान तरीके से चट्टीबारियातु में कोयला खनन कार्य को शुरूआत की पर अब तक वहां की रैयत ठगी महसूस कर रहे है। आगे उन्होंने कहा की कम्पनी के अधिकारियों ने ग्रामीणों के निजी सड़क से गांव के कुछ दबंगों के साठगांठ से कोयला ट्रॉसपोर्टिंग करना चाहती है, वैसा हरगिज नहीं होने देंगे। वही रैयतों की भीड़ में पुलिस प्रशासन रैयतों को समझाते दिखे। इस संदर्भ में एनटीपीसी चट्टीबारियातु कोल माइंस के जीएम विशय मोहन सिंह ने कहा की ग्रामीण कोयला को डिस्पेज होने दे एनटीपीसी की सारी सुविधाएं रैयतों तक पहुंचेगी।

लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने नौकरी को लेकर रैयतों से की मुलाकात

चरही। सीसीएल हजारीबाग एरिया के तहत चल रहे सीसीएल के तापिन साउथ परियोजना का विस्तारीकरण को लेकर शुक्रवार को परियोजना पाषिकारी एंके दिवाकर, खान प्रबंधक एसके सिंह,लैंड रेवेन्यू ऑफिसर क्षितिज अग्रवाल ने फुसरी के सिंघाड़ा टोला में रैयतों के साथ मुलाकात कर जमीन के बदले नौकरी के लिए जमीन के कागजात और वंशावली सहित अन्य जरूरी कागजातों को कार्यालय में जमा करने को कहा गया। मौके तापिन साउथ परियोजना पदाधिकारी एंके दिवाकर ने रैयतों को जोहर शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि नौकरी के लिए परियोजना कार्यालय के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कागजातों को जल्द से जल्द जमा करें ताकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मैनेजर एसके सिंह ने कहा कि ग्रामीण रैयत जल्द से जल्द नौकरी के लिए आवेदन को जमा करें। ताकि अपने आने वाले पीढ़ी मजबूत हो सके।वही बैठक में मौजूद ग्रामीणों का कहना था कि सीसीएल प्रबंधन एक मुस्त में नौकरी दे।व्योक्त सीसीएल के द्वारा फुसरी ग्राम के सारी जमीनों को अधिग्रहण कर ली है।जिस कारण गांव के मूलभूत विकास कार्य जैसे सड़क,पीएम आवास,सहित अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।ग्रामीणों ने प्रबंधन से मांग किया है कि सीसीएल प्रबंधन ग्रामीणों को एक साथ पूरे जमीन का नौकरी दे। बैठक में मुख्य रूप से समाजसेवी संजय मुर्मू, सोनामप मांझी,जयराम मांझी,लेचा मांझी, महेश टुडू,बिरसा टुडू,रामजी मांझी, रमेश मुर्मू, विजय टुडू,रमेश मुर्मू, बिनोद मुर्मू सहित गांव के कई ग्रामीण उपस्थित थे।

छात्र-छात्राओं के बीच गूंज संस्था ने किया अंग वस्त्र का वितरण



अंग वस्त्र का वितरण करते संस्था के लोग ।

खबर मन्त्र संवाददाता

टाटीझरिया। प्रखंड के खैरा पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय खैरा प्रांगण में उच्च विद्यालय शिक्षकों के काफी पर्यास के बाद गूंज संस्था के ओर से छात्र छात्राओं को ठंड से बचाव को लेकर लगभग सैकड़ों बच्चों को स्वेटर, टी शर्ट, पैंट उपलब्ध हुआ जो पंचायत की मुखिया कुमारी

माधुरी के हाथों वितरण करवाया गया। अंग वस्त्र पाकर बच्चों में काफी खुशी देखा जा रहा था मुखिया ने बच्चों को निमित्त विद्यालय आने ठंड से बचाव, साफ सफाई पर ध्यान देने जैसी बात कही। मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष अरविंद केसरी प्रधानाध्यापक सुरेंद्र राम, सहायक शिक्षकों में प्रमोद कुमार, मोनुलाल गुप्ता उपस्थित थे।





स्पीड न्यूज

बगडू के थाना प्रभारी बने पंकज शर्मा
लोहरदगा। बगडू थाना में शुक्रवार को नए थाना प्रभारी पंकज कुमार शर्मा ने योगदान दिया है। पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार शर्मा का लोहरदगा सदर थाना से बगडू थाना प्रभारी के रूप में स्थानांतरण किया गया है। एसपी आर राम कुमार ने पंकज कुमार शर्मा को बगडू थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। योगदान देने के बाद पंकज शर्मा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से कहा कि क्षेत्र में अमन, शांति बनाए रखना उनका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अपराध और उग्रवाद के निर्व्यंजन पर भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

जागरूकता सह सम्मान कार्यक्रम

कैरो प्रखंड प्रशासन द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर शुक्रवार को प्रखंड के हनहट में जागरूकता सह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी पवन कुमार महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में करीब पांच सौ अधिक आवास लंबित है जिसे प्रखंड प्रसासन द्वारा विभिन्न माध्यम से जागरूक करने का प्रयाश किया गया ताकि जल्द से जल्द आवास पूर्ण की जा सके। और जागरूकता का परिणाम है कि पिछले महीने जहाँ 140 आवास पूर्ण हुए वहीं इस महीने करीब दो सौ आवास पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया हू। मौके पर मुखिया श्रवण मुंडा, गुर्छा उरांव, आकाश कुंवर, मोहन साहू सहित प्रखंड कर्मी व पंचायत वार्सी मौजूद थे।

लोक अदालत को ले बैंकों की बैठक

लोहरदगा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल के कक्ष में बैंकों के ऋण समाधान हेतु जिले में लोक अदालत एवं स्थाई लोक अदालत लगाने हेतु एक बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर पाल के अध्यक्षता एवं सचिव राजेश कुमार की देखरेख में जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधकों व अन्य पदाधिकारियों के साथ की गई। डालसा अध्यक्ष ने कहा कि बैंकों के अनुरोध पर झालसा, रांची के निदेशानुसार इस जिले के विभिन्न बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स संबंधित ऋण के 18,856 मामले हैं ऋणधारियों के सुविधा के लिए उन्हीं के क्षेत्र में विशेष लोक अदालत के शिविर लगाने का निर्देश बैंकों को दिया गया है ताकि ऋणधारी अपना ऋण खाता को निष्पादित कर कर अपने को ऋण मुक्त कर सकें। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष प्रकाश पासवान, सदस्य रिमता, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार, एलडीएम रविन्द्र प्रसाद एवं अग्रणी बैंक के अधिकारीगण उपस्थित थे।

जिला अनुकंपा समिति की बैठक

लोहरदगा।उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल आठ मामलों पर चर्चा की गई और नियुक्ति संबंधी अनुरांसा करते हुए आवश्यक निदेश स्थापना उप समाहर्ता को दिये गये।बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, सिविल सर्जन, जिला आयुक् पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता, जिला शिक्षा अधीक्षक उपस्थित थे।

कृषि गणना को ले डीसी ने की बैठक

लोहरदगा।उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में कृषि गणना के प्रतिाि को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला में गांवों की संख्या, कुल कृषकों की संख्या, भूमि, लक्ष्य, तय समय पर कृषि गणना पूर्ण करने समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उप विभागाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि कृषि गणना को लेकर सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य में प्रगति लाते हुए कृषि गणना का कार्य तय समय पर पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त समीरा एस, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।

शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का किया निरीक्षण
भंडरा। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनदा घोस ने शुक्रवार को भंडरा प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर लाल बहादुर शास्त्री 10 पल्स टू विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में चल रहे प्रोजेक्ट बंगीधर कन्या विद्यालय, मॉडल विद्यालय के विद्यार्थियों से मुलाकात कर विद्यालय में पठन पठान की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानाध्यापक अजय कुमार को विद्यालय के विकास मद को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कर जल्द हि विकास मद की राशि को खर्च करने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खबर मंत्र सवाददाता को बताया की पूरे जिले में शिक्षकों की कमी है जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में तीन विद्यालय संचालित हो रही है। शिक्षकों की ह हाली के उपरांत तीनो विद्यालयों को अपने अपने भवनो में संचालित कराया जायेगा। मौके पर बी ई ई ओ जयनाथ महतो,प्रधानाध्यापक अजय कुमार,बीपीओ निशांत कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

बीएस कॉलेज में खेलकूद 10 से

लोहरदगा।बलदेव साहू महाविद्यालय लोहरदगा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 10 फरवरी और 11 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुलापति डॉ अजीत कुमार सिन्हा और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाविद्यालय में एक बैठक रखी गई। जिसमें सभी शिक्षकों ने एकमत से कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया।महाविद्यालय के खेल प्रभारी प्रोफेसर आनंद मांझी की सक्रियता के कारण वर्षों से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता नहीं होने के बावजूद इसे भव्य ढंग से कराने हेतु महीनों से महाविद्यालय में बैनर पोस्टर लगाकर छात्रों के बीच कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहवर्धन का काम किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। जिसमें अलग-अलग कमिटीयों का निर्माण किया गया और इसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को दी गई।

रांची, शनिवार

04.02.2023

गुमला/लोहरदगा

युवक की गला रेत कर हत्या

परिजनों ने गुमला-रांची मार्ग को किया जाम

► **एसडीओ और एसडीपीओ के समझाने पर जाम हुआ समाप्त**
► **मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी, सुआवजा व बच्चों की उचित शिक्षा की कर रहे थे मांग**
► **रात में फोन आने पर पत्नी से कहकर निकला था घर से**



मृतक युवक का शव।

किसी ने दी तो रात में ही जाकर पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम होने के बाद दोपहर में शव



जामकर्ताओं से वार्ता करते एसडीओ व एसडीपीओ।

के साथ लोगों ने टावर चौक जाम कर दिया। जाम के दौरान आक्रोशित लोग नारे लगा रहे थे। सड़क जाम कर रहे लोगों ने घटना में संलिप्त अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी, मृतक के आश्रित को दस लाख रूपया मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी

नौकरी देने एवं मृतक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। जाम से टावर चौक में वाहनों की लंबी कतार लग गई। थाना प्रभारी ने कहा कि हत्या किन कारणों से हुई है। पुलिस जांच कर रही है जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे।

गुमला में गिरते कानून व्यवस्था पर

भाजपा जिलाध्यक्ष ने जतायी चिंता

गुमला। जिले में गिरते कानून व्यवस्था पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अनुपचंद्र अधिकारी ने कहा कि शहर से सटे लक्ष्मण नगर में परमेश्वर सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई है जो कि पुलिस प्रशासन का पोल खोलने के लिए काफी है। भाजपा सरकार से मांग करती है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा, नाबालिग बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे एवं 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं हुई हो संगठन आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाय कम है। घटना को लेकर सांसद सुदर्शन भगत, समीर उरांव, पूर्व स्पीकर डॉ दिनेश दिनेश उरांव, पूर्व विधायक कमलेश उरांव, शिव शंकर उरांव, मिसिर कुजूर, सत्यनारायण पटेल, निर्मल गोयल, सर्विंदर सिंह,दामोदर कसेरा, संजय सिंह,गायत्री देवी, प्रदीप प्रसाद, किरणमाला बाड़ा, रविंद्र कुमार सिन्हा, चितरंजन मिश्रा,अरविंद मिश्रा, संतोष सिंह, विकास सिंह, शंभू सिंह, विपिन सिंह आदि कार्यकर्ताओं ने शोक प्रकट किया।

शराब दुकानों के कर्मियों ने डीसी से मानदेय भुगतान की लगायी गुहार

दो प्रतिशत ओवर रेट कर शराब बेचने का दबाव देने का विभागीय अधिकारियों पर लगाया आरोप

गुमला। देशी व विदेशी शराब दुकान में कार्यरत कर्मियों ने शुक्रवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मानदेय भुगतान कराने की मांग की है। साथ ही विभागीय अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कर्मियों ने कहा कि 9 माह से वे देशी व विदेशी शराब दुकान में काम कर रहे हैं। जिसमें चार माह का ही अधूरा मानदेय उन्हें प्रदान किया गया है। समय पर मानदेय भुगतान नहीं होने से परिवार चलाने में उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। वहीं माह जनवरी से उत्पाद विभाग व प्लेसमेंट



एजेंसी के द्वारा दो प्रशितत ओवर रेट कर शराब की बिक्री का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कार्य पूरा नहीं करने वाले कर्मियों को निकाल दिया जा रहा है। कर्मियों ने उपायुक्त से अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए अविलंब मानदेय भुगतान कराने की गुहार लगायी। इस अवसर पर राजेश

कुमार सिंह, रितेश बैठा, बिनोद सोनी, एके सिंह, अनिल चौबे, संतोष कुमार साहु, गणेश प्रसाद, चंदन कुमार, विजय गोप, सुजीत कुमार साहु, शनि राम, अनिल कुमार, गौतम केसरी, चंद्रिका राय, अमन कुमार सिंह, रोहित कुमार, रविंद्र कुमार, जुरेन महतो आदि उपस्थित थे।

ग्रामीणों की समस्या के निदान को काम कर रही कांग्रेस : चैत

गुमला। प्रखंड कांग्रेस कमेटी गुमला की बैठक शुक्रवार को मुर्कुड़ा पंचायत के कुटुमा गांव में प्रखंड अध्यक्ष गुलाम सरवर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष चैत उरांव मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में गांव की समस्या पर चर्चा की गई। जिसमें राशन कार्ड व सिंचाई से संबंधित समस्या सामने आयी। मौके पर जिलाध्यक्ष चैत उरांव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार काम कर रही है। जिसको लेकर प्रखंड व पंचायतों में शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्या से अवगत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर ग्रामीणों के घर पहुंचकर अधिकारी लगातार समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है उसे पार्टी स्तर से अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।

पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं बर्नपुर के ग्रामीण

खबर मन्त्र संवाददाता

गुमला। मिशन बदलाव का गांव चलो गांव बदलो अभियान शुक्रवार को कामडरा प्रखंड के बर्नपुर गांव में चलाया गया। मिशन बदलाव के सदस्यों ने गांव का दौरा कर गांव की मूलभूत समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल समस्या पर अपनी चिंता जाहिर की और बताया कि गांव में एक जल मीनार वह खराब पड़ा हुआ है। गांव में सड़क निर्माण किया जा रहा है। लेकिन उसकी

मिशन बदलाव के गांव चलो गांव बदलो अभियान में ग्रामीणों ने रखी समस्या

गुणवत्ता बहुत खराब है। मिशन बदलाव कामडरा प्रखंड अध्यक्ष मारवाड़ी बिरहोर ने बहुत तल्लू लहजे में प्रशासन के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कार्य पूरा किए जाने और जलमीनार दुरुस्त कराने की बात कही। प्रखंड सचिव जॉन टोपानो ने गांव चलो गांव बदलो अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि ग्रामीणों को अपनी और अपने गांव की दशा और दिशा बदलने



के लिए खुद आगे आना होगा और प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों तक

समस्याओं को लेकर जाना होगा कि हमारी समस्या के समाधान के लिये क्या किया गया है।

पंचायत समिति सदस्य जेम्स होरो और सिकंदर सिंह ने विश्वास जताया और कहा कि मिशन बदलाव टीम हर कदम पर मजबूती के साथ ग्रामीणों के साथ खड़ी रहेगी। बैठक में मिशन बदलाव बसिया प्रखंड अध्यक्ष रामलखन गोप, बुधवा पाहन, प्यारी बारला, कुंवर टोपानो, अंजली बारला, नीरज मुंडा, रामपद मुंडा, हल्लू खंडिया, पंचू साहू आदि उपस्थित थे।

ऑक्सीजन के लिए जरूर पेड़ लगायें : डॉ वाघमारे

वायु मुफ्त मिलती है जो मनुष्य की सबसे जरूरी आवश्यकता है। इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसका एक मात्र विकल्प है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। जंगल से हमें फल, फूल, औषधि, शहद, लाह इत्यादि मिलते हैं। प्राण वायु मिलता है। पेड़ पौधे रहेंगे तो भूगर्भ जल का संरक्षण होगा। भूमिगत जल नीचे नहीं जाएगा। भूमि की आद्रता बनाये रखने के लिए जरूरी है पेड़-पौधे लगाना।पेड़ और पानी के बीच अन्याय्याश्रय संबंध है। कार्यक्रम में

एक नजर में

हत्या के विरोध में वकील रहे न्यायिक कार्य से दूर

गुमला। लक्ष्मण नगर निवासी परमेश्वर सिंह की हत्या को लेकर शुक्रवार को बार एसोसिएशन गुमला के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहे। मृतक लिपिक का कार्य करता था। घटना की सूचना पर बार एसोसिएशन में शोक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें मृतक की आत्मा की शांति के लिए सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा। बार एसोसिएशन के सचिव बाबूलाल ने बताया कि घटना की जानकारी होने पर बार एसोसिएशन की बैठक बार भवन में हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे।

68 पुलिस अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

गुमला। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के 68 पुलिस पदाधिकारियों को 8 सप्ताह का प्रोन्तति प्रशिक्षण पुलिस केंद्र गुमला में दिया गया। यह प्रशिक्षण पूर्व में झारखण्ड राज्य के पुलिस ट्रेनिंग संस्थानों में आयोजित होता आया था। परंतु इस बार ये जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलों को ही सौंपी गई थी। गुमला पुलिस जिम्मेदारी का सफलता पूर्वक निर्वहन करते हुए सभी पदाधिकारियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण का पारण परेड आयोजित की गई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक ऐहंशम वकारिव उपस्थित रहे और परेड का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण में बेस्ट फायरर सअनि रामाशंकर प्रसाद, बेस्ट इंडोर क्लास प्रशिक्षु-सअनि सत्यदेव राम, बेस्ट आउटडोर क्लास प्रशिक्षु सअनि अजय तिग्गा, बेस्ट ओवर ऑल प्रशिक्षु सअनि विक्रम उरांव को चुना गया। जिन्हें एसपी के ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ऐहंशम वकारिव, अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्राण रंजन, एसडीपीओ बसिया श्री विकास लागुरी, प्रोबेशनर डीएसपी प्रदीप कुमार, सर्जेंट मेजर श्री प्रणव कुमार, इन्स्पेक्टर गुमला श्री मनोज कुमार, सर्जेंट रविंद्र यादव आदि उपस्थित थे।

क्रिकेट को बढ़ावा देने को बन रहा टर्फ पिच

गुमला। जिले में क्रिकेट को बढ़ावा देने व अच्छे प्रतिभावना खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने लाने को लेकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन गुमला के द्वारा तेलंगा खड़िया स्टेडियम में टर्फ मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। तेलंगा खड़िया स्टेडियम में शुक्रवार से टर्फ मैदान का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। लगभग 80 फीट लंबी व 40 फीट चौड़ा टर्फ मैदान बनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि गुमला जिला के खिलाड़ी मैट पर ही क्रिकेट खेलते थे जो बाहर किसी प्रतियोगिता में जाने पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। क्योंकि उन्हें पीच का अनुमान ही नहीं हो पाता था। टर्फ मैदान बनने से जिले के कई खिलाड़ियों को पीच का पूरी तरह अनुमान होगा और वे हर मैच में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जिले में टर्फ मैदान बनने से क्रिकेट की कई प्रतिस्पर्द्धा भी आयोजित होगी। क्योंकि टर्फ मैदान नहीं रहने के कारण जिले में प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाता था। वहीं टर्फ मैदान बनने से जिले के कई प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मुकाम बना सकते हैं। पीच निर्माण के दौरान ज्ञान प्रकाश ,सौरभ कुमार अफिंत, यमुना झा ,सनी कुमार, विकी कुमार साहू, आरुण राज, राहुल कुमार ,सौरभ कुमार, संजीव कुमार, मोतीलाल साहू ,पिंटू रे ,हर्ष कुमार, अफिंत तिवी, ऋषभ कुमार आदि खिलाड़ी मैदान पर जमे हुए हैं।

अवैध बॉक्साइट खनन की सीओ ने की जांच

घाघरा। अवैध बॉक्साइट खनन को लेकर घाघरा व बिशनपुर प्रखंड अंचलाधिकारी के अलावे दोनों ही प्रखंड के थाना प्रभारी ने सामूहिक रूप से सेरेनैदाग, गाढ़ाकेचकी, बंडा पाट, सुधी कोना, हाड़हा पाट, सेरका जालिम क्षेत्र में सर्वेक्षण किया। इस दरमियान दोनों ही अंचल अधिकारियों ने खनन क्षेत्र का सीमांकन कर नक्शा में सत्यापित किया। इस संबंध में घाघरा के अंचलाधिकारी प्रणव ऋतुराज ने बताया कि अवैध बॉक्साइट खनन की लगातार मिल रही सूचना के बाद उपायुक्त के निदेशानुसार दोनों ही प्रखंड के अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी के साथ बॉक्साइट खनन क्षेत्र में सत्यापन किया गया। जहां पर कई तरह की बातें सामने आई है। उन्होंने बताया कि गुमला जिला के अलावे लोहरदगा जिला की कुछ भाग में खनन का कार्य चलता है। उपायुक्त से हम लोगों के द्वारा आग्रह किया जाएगा कि लोहरदगा जिले के भी अधिकारियों को इस जांच प्रक्रिया में शामिल किया जाए तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं कई लोगों को अवैध माइनिंग करने को लेकर चिन्हित भी किया गया है हालांकि अधिकारी पूरी तरह से कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। इस मौके पर बिशनपुर के अंचल अधिकारी धनंजय पाठक, घाघरा के अंचल अधिकारी प्रणव ऋतुराज, बिशनपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह, घाघरा थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, राजस्व कर्मचारी सुशील कुमार के अलावे कई लोग मौजूद थे।

कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन को ले बैठक

घाघरा। कस्तूरबा गांधी आवसीय विद्यालय में नामांकन हेतु प्रखंड कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सविता देवी ने की। जिसमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व प्रखंड के कर्मियों के बीच नामांकन से संबंधित जानकारी दी गई। बीडीओ विष्णु देव कछ्पु ने बताया कि वैसे छात्राएं जो पढ़ाई छोड़ दी हैं या वैसे बच्चे जो काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र या गरीब परिवार से आते हैं जिन्हें पढ़ाई में काफी बाधा हो रही है।

कोर्ट नोटिस

अदालत सिविल जज सिनीयर

डिवीजन-11

व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा।

पार्टीशन सूट नम्बर - 59/2016

महेश साहू तथा अन्य वादी बनाम

माइ साहू तथा अन्य..... प्रतिवादी

नोटिस बनाम प्रतिवादी संख्या- 17(a) विजय तिवारी 17(b) कैयारी तिवारी 17(c) पेनो तिवारी सभी पिता स्व० शंकर तिवारी 18. कृष्णा साहू 19. मझीन्द्र साहू दोनों पिता लक्ष्मण साहू 20. रतन साहू पिता हरिया साहू सभी निवासी ग्राम- अरुं थाना सेन्हा जिला लोहरदगा, (झारखण्ड)।

बजरिये इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि वादी ने आपके विरुद्ध उपरोक्त पार्टीशन सूट इस न्यायालय में दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई की तिथि दिनांक 06.02.2023 को समय 10.30 बजे पूर्वाह्न में तय की गयी है। इसके पूर्व आपलोगों को नज्दत के माध्यम से तथा निबधित डाक द्वारा सूचना दी जा चुकी है।

अतः आप उक्त तिथि को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर वाद की समुचित पेरी करे, अन्यथा आपके अनुपस्थिति में वाद की कार्यवाही एकपक्षीय कर दी जायेगी। इसे ताकिद जाने।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से आज दिनांक 23.01.2023 ई० को जारी किया गया।

सिविल जज सिनीयर डिवीजन - 11, व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा।

माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ से लातेहार पुलिस ने हथियारों का जखीरा किया बरामद

डीआइजी राज कुमार लकड़ा ने कहा, ऑक्टोपस झारखंड पुलिस के अभी तक का सबसे सफल अभियान रहा है, नाओवादी भागे-भागें फिर रहे हैं

खबर मन्त्र संवाददाता

लातेहार। शुक्रवार को लातेहार एसपी सभागार में पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा व लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बुढ़ा पहाड़ पर चल रहे ऑपरेशन एवं सफलताओं को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना कहे जाने वाले बुढ़ा पहाड़ पर झारखण्ड पुलिस ने नक्सल मुक्त कराने के लिये ऑपरेशन ऑक्टोपस प्रारम्भ किया गया है। जिसमें लातेहार पुलिस, गढ़वा पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कोबरा झारखण्ड जगुआर की टीम ने संयुक्त रूप से बुढ़ा पहाड़ एवं आस-पास के इलाकों में व्यापक पैमाने पर



प्रेस वार्ता कर जानकारी देते आइजी व एसपी ।

अभियान निकाले। ऑक्टोपस झारखण्ड पुलिस के अभी तक का सबसे सफल दीर्घकालिक एवं महत्वकांक्षी अभियान रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन लातेहार को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के शीर्ष कमाण्डर सौरभ जी उर्फ मारकुस

भोक्त, नेशनल भुइयां उर्फ नेशनल जी. सुखलाल बूजिया उर्फ अकेला बूजयी उर्फ गुरु जी एवं अन्य 10-15 हथियारबंद दरता सदस्यों के साथ मिलकर बारेसाढ़ थाना अंतर्गत बुढ़ा पहाड़ के जोकपानी के जंगल में एकत्रित है और किसी बड़ी विध्वंसकारी योजना को अंजाम देने के फिराक में हैं। प्राप्त सुचना के सत्यापन एवं आवश्यक कारवाई हेतु पुलिस अधीक्षक लातेहार के द्वारा स्पेशल ऑपरेशन ऑक्टोपस का गठन किया गया। सर्च अभियान के दौरान बुढ़ा पहाड़ जो की माओवादीयों के द्वारा लपये गये आई०ई०डी० से लैस, आईईडी प्रोन जोन में बीडीडीएस टीम स्नाईफर डॉग की दक्षता अभियान में गये पुलिस पदाधिकारी, जवानों की अदम्य साहस, महत्वकांक्षी

अपनी विरता का परिचय देते हुए बुढ़ा पहाड़ से नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गये अत्याधुनिक हथियार एवं एम्युनेशन, पाउच बरामद किया गया है। इस संबंध में बारेसाढ़ थाना कांस्ट सं0-03/2023 दिनांक 02.02.2023 थारा- 147/ 148/149 /120 (बी) भा0द0वि0 25 (1-अ) /25(1-अअ)/26 2) / 35 आर्स एक्ट 10/13 युरपी एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है

बरामद समानो कि विवरणी : एक ईसास एलएमजी पुलिस रायफल, एक ईसास पुलिस रायफल, दो एसएलआर पुलिस रायफल, 5.56 एमएम ईसास का जिन्दा गोली 230 राउण्ड, 7.62 एमएम ईसास का जिन्दा गोली 240

राउण्ड, 5.56 एमएम ईसास एलएमजी का मैगजीन 04, 5.56 एमएम ईसास का मैगजीन 03, एम्युनेशन पाउच 04

छापामारी अभियान दल में

उप समादेष्टा (डीसी) हर्ष त्रिपाठी, कोबरा- 209, सहायक समादेष्टा केशव कुमार मिश्रा कोबरा 209, इंस्पेक्टर सुशील तिग्गा कोबरा- 209, इंस्पेक्टर धर्मेन्द्र कुमार कोबरा- 209, रंजीत कुमार यादव, थाना प्रभारी बारेसाढ़, पुअनि करण कुमार यादव बारेसाढ़ थाना, लालचंद बेदिया, बुढ़ा सिंह कोबरा 209, सअनि मजलू कालिन्दी समेत सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे।

श्री वैष्णव दुर्गा मंदिर के भंडारे में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 15 हजार लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण

विधायक वैद्यनाथ राम ने की मंदिर में भक्त्य प्रवेश द्वार बनवाने की घोषणा

घर में घुसकर महिला की गला रेतकर की हत्या लोगों ने विरोध में किया गया सड़क जाम



थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए लोग ।

खबर मन्त्र संवाददाता

बालूमाथ। बालूमाथ थाना से 10 किलोमीटर दूर मासीयातु ग्राम में बीती रात अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गया। गुरुवार की संध्या लगभग आठ बजे अज्ञात अपराधियों ने सुनीता देवी 42 वर्ष पति प्रमोद प्रसाद गुप्ता ग्राम मसियात के घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी । घटना की सूचना पाकर बालूमाथ इंस्पेक्टर शशिरंजन कुमार, थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद व दल बल के साथ रात्रि में ही मसियातु ग्राम पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया एवं घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है जल्द ही खुलासा किया जायेगा। इधर घटना के विरोध में परिजनों द्वारा शुक्रवार की सुबह बालूमाथ थाना चौक के समीप सड़क जाम कर दिया। जाम कर रहे परिजनों ने कहा कि एक सच्चाह के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार करने परिजनों को दस लाख रुपये मुआबजा एवं एक परिवार को नौकरी देने की मांग

की। लातेहार एसडीएम शेखर कुमार ने मोबाइल पर जमाकतओं से वार्ता कर उचित मुआवजा व नौकरी देने का आश्वासन दिया एवं थाना प्रभारी द्वारा हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाय़ा गया। सड़क जाम होने से रांची चतरा मुख्य पथ पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।मिली जानकारी के अनुसार सुनीता देवी मासियातु अपने घर में किराना का दुकान चलाती थी गुरुवार को उसके पति बवनहरुआ बाजार गया हुआ था अपने पति को फोन कर फल व सब्जी लाने को कहा था और उसके पति बाजार से जब लगभग 8.15 बजे लगभत अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी का गला रेटा हुआ मृत अवस्था मे पाया। इसे देख प्रमोद चिल्लाने लगा। आसपास के ग्रामीण पहुंचे और इसकी सूचना बालूमाथ पुलिस को दी। परिजनों ने बताया की बगल के गांव में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में सामग्री बेचने का काम करता हैं एवं उसकी पत्नी घर में किराना दुकान चलाती थी। अगल बगल में कोई घर नहीं होने के कारण। वह घर पर सिर्फ अकेली थी।

खबर मन्त्र संवाददाता

लातेहार। श्री वैष्णव दुर्गा मंदिर लातेहार के 30 वें वार्षिकोत्सव के मौके पर मंदिर परिसर में माता के भंडारा का आयोजन किया गया। भंडारा का शुभारंभ विधायक वैद्यनाथ राम, अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार, पथ निर्माण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार वर्मा व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से नौ कुंवारी कन्याओं को भोजन करा कर किया। मौके पर वैदिक मंत्रोच्चारण पंडित त्रिभुवन पांडेय व राजेश पाठक ने किया। जबकि मौके पर बतौर मुख्य यजमान सुधीर कुमार व उनकी पत्नी उपस्थित थीं। भंडारे में लातेहार एवं आसपास के तकरीबन 15 हजार श्रद्धालुओं ने लगभग 4:30 बजे सुनीता देवी अपने पति को फोन कर फल व सब्जी लाने को कहा था और उसके पति बाजार से जब लगभग 8.15 बजे लगभत अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी का गला रेटा हुआ मृत अवस्था मे पाया। इसे देख प्रमोद चिल्लाने लगा। आसपास के ग्रामीण पहुंचे और इसकी सूचना बालूमाथ पुलिस को दी। परिजनों ने बताया की बगल के गांव में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में सामग्री बेचने का काम करता हैं एवं उसकी पत्नी घर में किराना दुकान चलाती थी। अगल बगल में कोई घर नहीं होने के कारण। वह घर पर सिर्फ अकेली थी।

नौ कुंवारी कन्याओं को भोजन करा भंडारे का किया शुभारंभ



नौ कन्याओं को भोजन कराते विधायक व अन्य ।



प्रसाद ग्रहण करते विधायक व पदाधिकारीगण ।

राजू रंजन सिंह, राजू प्रसाद, चंद्रप्रकाश उपाध्याय, राजीव कुमार, कुक्कू गुप्ता, फंकज प्रसाद, सतीष कुमार, संतोष दुबे, जीतेंद्र प्रसाद, विदेश्वर प्रसाद, आकाश कुमार जायसवाल, दीपक विश्वकर्मा, विजेंद्र कुमार दास, प्रदीप प्रसाद व गौतम दास आदि का सराहनीय

योगदान रहा। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सीतामनी तिकरी, राजधानी प्रसाद यादव, महेंद्र प्रसाद गुप्ता, अमरेश प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र कुमार शौंडिक, प्रमोद प्रसाद सिंह, विनोद कुमार महलका, हेमंत सिंह, अनिल सिंह, अंकित पांडेय, विशाल कुमार, सुनील शौंडिक, दुर्गा प्रसाद,

कुरमी टोला के पास से कोयला लोड ट्रैक्टर जब्त

खबर मन्त्र संवाददाता

चंदवा। अवैध रूप से कोयला का खनन व परिवहन के खिलाफ चंदवा पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आ रही है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की देर रात्रि अभियान पर निक्ली चंदवा पुलिस की टीम ने चंदवा-मालहन-मैकुलस्कीगंज पथ पर चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरमी टोला गांव के



बरामद ट्रैक्टर ।

पास से अवैध कोयला लोड ट्रैक्टर को पकड़ लिया। हालांकि काफी रात्रि होने के कारण अंधेरा का लाभ उठाते हुए कोयला तस्क़र पुलिस

को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा अभियान तेज कर दिया गया है। पुनि सह थाना

प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। जो भी लोग ऐसे धंधे में संलिप्त हैं वे सुधर जाए। इस मामले में चंदवा थाना में कांड संख्या 30/23 में 414/34 भादवि एवं 30 (दो) कोल माईंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापामारी अभियान में पुअनि जमील अंसारी और सैट 202 के जवान शामिल थे।

चंदवा सीएचसी में लगा प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला, विधायक वैद्यनाथ राम ने भी शिविर में करायी स्वास्थ्य जांच ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अतिलाभकारी सिद्ध हो रहे ऐसे कार्यक्रम : वैद्यनाथ राम पूरे प्रखंड से सैकड़ों लोगों ने शिविर में करायी स्वास्थ्य जांच, लिया चिकित्सकीय परामर्श

खबर मन्त्र संवाददाता

चंदवा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा परिसर में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि झामुमो के लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम, सिविल सर्जन दिनेश कुमार व अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीर्घ प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक वैद्यनाथ राम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए स्वस्थ शिविर काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिविर के माध्यम से अपना निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करा रहे हैं साथ ही उन्हें चिकित्सकिय परामर्श भी मिल रहा है जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। विधायक वैद्यनाथ राम ने आगे कहा कि हमारी सरकार की ओर से महत्वकांक्षी चिकित्सा सहायता



शिविर को संबोधित करते विधायक व मंत्रासीन अतिथि तथा शिविर में लगे स्टॉल का जायजा लेते विधायक व अन्य ।

योजना चलाई जा रही है। पहले असाध्य रोग से पीड़ित को इलाज के लिए 5 लाख तक की सहायता मिलती थी, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ करने की योजना हमारी सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जल्द ही सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प होगा। गांव के अतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचे इसको लेकर सरकार गंभीर है।

चिकित्सकों की कमी को जल्द किया जाएगा दूर: डॉ. दिनेश कुमार शिविर को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि सीएचसी में डॉक्टरों की कमी समेत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल आ रहे हैं। जिसे गंभीरता से लिया गया है, चंदवा सीएससी में जल्द ही डॉक्टरों की कमी को दूर कर लिया जाएगा, विशेषज्ञ चिकित्सक भी सीएचसी में नियुक्त किये जायेंगे साथ ही अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था बहाल



की जाएगी। शिविर के दौरान विधायक वैद्यनाथ राम, सिविल सर्जन दिनेश कुमार समेत अन्य अतिथियों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न स्थलों का जायजा भी लिया। इस दौरान विधायक वैद्यनाथ राम ने अपना स्वास्थ्य जांच भी कराया व लोगों से शिविर का लाभ उठाने की भी अपील की। इस दौरान विधायक ने नन्हें-मुन्ने बच्चों के बीच टॉफी भी बांटा। बता दें कि शिविर में आयुष्मान भारत, मलेरिया, दिवांग

पंजीकरण, कुछ रोग, नेत्र जांच, परिवार नियोजन, एनसीडी, सामान्य जांच, कोविड टिकाकरण समेत कई स्टॉल लगाए गए थे। जहां सैकड़ों लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया व चिकित्सकीय परामर्श भी लिया। शिविर में स्वास्थ्य जांच कराने वाले लोगों के बीच निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद : बीडीओ विजय कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉ. नंदकुमार पांडे, जिप सदस्य सरोज देवी, पंसस अयुब

खान, डॉ. निलमनी, डॉ. शंभु चौधरी, डॉ. नीलोमा कुमारी, डॉ. तरुण जोश लकड़ा, डॉ. अखिलेश प्रसाद, राजद जिलाध्यक्ष रामप्रवेश यादव, पंसस अयुब खान, रामयश पाठक, रवि डे, सांसद प्रतिनिधि महेन्द्र प्रसाद, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि असगर खान, बीस सुत्री अध्यक्ष सुरेश गंडू, बीस सुत्री उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, सत्येंद्र प्रसाद यादव, राजकुमार साहू, सरफरख अहमद, मलेरिया विभाग से आर्यन कुमार, रुपक कुमार सिंह, अस्पताल कर्मी प्रवीण कुमार भोला, हसीब आलम, त्रिलोकी सिंह, बीरबल भगत, रमेश राम, पुष्पा कुमारी, धनेश्वर प्रसाद, कृष्ण कांत कुमार, बीपीएम मीरा केसरी, लिपिक बिनीता कुमारी, चंद्रमोहन प्रसाद, सीताराम, सुमीत कुमार, सुरेश निश्वकर्मा, मनोज सिंह, विकास रंजन, जितेन्द्र कुमार समेत कई लोग मौजूद थे।

एक नजर में

बजट से लोगो को कई तरह के मिलेंगे फायदे : रूपेंद्र

हेरहंज। बुधवार को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद भवन में आम बजट पेश किये जाने के बाद हेरहज प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि रूपेंद्र जायसवाल ने कहा की देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वास्तव मे उसे हकीकत मे बदलने का कार्य हो रहा है। इस बजट से समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत का सपना पुरा होगा। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने हर तबके का ख्याल रखकर एक वर्ष तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा भी की है। वित्त मंत्री द्वारा संसद भवन मे जिस तरह आम बजट पेश किया वह यहाँ के लोगो के लिए ही नही देश के हित के लिए भी ठीक है, इस बजट से लोगो को कई तरह की फायदा मिलेगा।

प्राचार्य के हिटलरशाही रवैये के कारण बच्चों के अभिभावकों में आक्रोश

लातेहार। केंद्रीय विद्यालय लातेहार के प्राचार्य के हिटलर शाही रवैया के कारण बच्चों के अभिभावकों मे रोष व्याप्त है। ज्ञात हो कि करीब नौ बजे इस रास्ते से पत्रकार मित्र जब गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि केन्द्रीय विद्यालय के बाहर कुछ बच्चे खड़े है तब उन्होंने बच्चों से पुछताछ किया जिसमें पता चला कि महज 5 से 10 मिनट लेट हो गए। जिस कारण प्राचार्य द्वारा उन बच्चों को गेट पर घंटों रोक दिया गया। इसकी जानकारी बच्चों के अभिभावकों को हुई तो उन्होंने इस बात को प्राचार्य से स्कूल पहुंचकर पूछा की आखिर बच्चों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आपने उन्हें गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अभिभावकों ने यह भी कहा की अगर बच्चों ने कोई गलती की भी है तो इसकी जानकारी बच्चों के अभिभावकों को आपके द्वारा बतानी चाहिए। न की स्कूल गेट के पास बाहर सड़क पर खड़ा करना चाहिए। लेकिन प्राचार्या द्वारा अभिभावकों की बात को नजर अंदाज करते हुए बच्चों की ही शिकायत करते दिखी। प्राचार्या द्वारा बार बार कहा जा रहा था की बच्चे प्रतिदिन लेट स्कूल आते है। लेकिन अभिभावकों ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है।

युवकों ने श्रमदान कर मैदान को बनाया स्वच्छ और सुंदर, बीडीओ ने किया पौधारोपण

बरवाडीह। बरवाडीह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय और मुखिया कालो देवी ने शुक्रवार को पंचमुखी शिव मंदिर के युवाओं को एक सादे समारोह के दौरान अंगवस्त्र भेंटकर सम्मनित किया। बता दें कि युवकों ने मध्य विद्यालय के खेल मैदान में वर्षों से लगे गंदगी के अंबार को साफ करने का बीड़ा उठाया और युवा समाजसेवी नार्गेड प्रसाद गुप्ता उर्फ नागा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाकर मैदान की समुचित सफाई कर डाली। वहीं बीडीओ ने खेल मैदान के चारो ओर पौधारोपण भी किया और ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले दर्जनों पौधे लगाए।

डीसी से आंगनबाड़ी सेविका चयन को रद्द करने की मांग

लातेहार। जिले के चंदवा प्रखंड के मालहन पंचायत अंतर्गत देवनदिया ग्राम में विगत दिनों हुए आंगनबाड़ी सेविका चयन को पुनः रद्द कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त भोर सिंह से गुहार लगाई है। शुक्रवार को जनता दरबार में ग्रामीणों ने डीसी के नाम आवेदन देते हुए कहा कि मालहन पंचायत अंतर्गत देवनदिया ग्राम में 31 जनवरी को आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ।

वन विभाग की टीम ने लगभग 1 एकड़ में लगी पोस्ते की खेती को किया नष्ट

चंदवा। डीएफओ रोशन कुमार के निर्देशानुसार वन क्षेत्र पदाधिकारी राकेश कुमार की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के मल्हन पंचायत अंतर्गत गमियारी गांव के समीप पहाड़ों की तलहटी पर लगभग 1 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए पोस्ता अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। वन विभाग व चंदवा पुलिस इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल तेज कर दिया है, साथ ही जिस जमीन पर अफीम की खेती की गई थी, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। रंजर राकेश कुमार ने कहा कि अफीम की खेती अभिशाप है। यह समाज को खोखला करता है व युवाओं का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। क्षणिक लाभ के चक्कर में ऐसे अवैध धंधे से बाज आएं, अन्यथा कानून कड़ी कार्रवाई करेगी। अभियान में विभाग के उमेश कुमार, राजू भगत, देव नाथ भगत, वीरेंद्र कुमार, सुमित कुमार, विश्वास देव पांडेय समेत कई लोग शामिल थे।

पीवीयूएनएल ने बनहरदी ग्राम में किया कंबल का वितरण

चंदवा। बनहरदी कोल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र बनहरदी ग्राम में शुक्रवार को पतरातु ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा आईसीडी पहल के तहत कंबल वितरण का शिविर लगाया गया। शिविर में बनहरदी पंचायत के दर्जनों वॉचतों, बुजुर्गों, विकलांगों और महिलाओं के बीच कंबल वितरित किया गया। विदित को पतरातु विद्युत ऊर्जा उत्पादन निगम निगम लिमिटेड के द्वारा विगत एक पखवारे से लगातार बनहरदी कोल ब्लॉक से प्रभावित क्षेत्र में गरीब, असहायों एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। पीवीयूएनएल एजीएम माइनिंग एम.चंद्र शेखर, ए.जी.एम.माइनिंग आर.बी. सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक विनेश कुमार समेत काफी संख्या में ग्रामीण व पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।

एक्सपोजर विजिट के लिए पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मियों का दल जयपुर खाना

चंदवा। पंचायती राज विभाग के द्वारा जिले के चंदवा प्रखंड के लाधूप पंचायत के जम्प्रतिनिधि जिला पंचायती राज के जिला समन्वयक मानस मंडल के नेतृत्व में एक्सपोजर विजिट के लिए शुक्रवार को जयपुर राजस्थान खाना हुए। राजस्थान जाने वालों में लाधूप मुखिया बिपई मुंडा,पंचायत सचिव जगेशर उराव, रोजगार सेवक ज्योतिपाल खलखो, फिरोज राय, धनेश्वर मुंडा, रामप्रवेश पाहन, सभी वार्ड सदस्य, लाधूप, रिशेश कुमार, प्रखंड समन्वयक के नाम शामिल है। बग़ाते चले कि पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार के द्वारा एक्सपोजर विजिट के लिए चंदवा प्रखंड के लाधूप पंचायत का चयन किया गया था।

दुकान बंद रखने का किया आह्वान

बालूमाथ। बालूमाथ जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ द्वारा शुक्रवार को ब्लॉक परिसर के शिव मंदिर के प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई है जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जुबेर ने की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मोहम्मद जुबेर ने बताया कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फाउंडेशन के आह्वान पर दिनांक 7 फरवरी से 9 फरवरी तक बालूमाथ बारियातू एवं हेरहंज प्रखंड के सभी दुकान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा 12 सुत्री मांग को लेकर दुकान बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें सभी की दुकानदार 60 वर्ष आयु सीमा समाप्त करने के बाद उसकी बहाली पूर्व की भांति अनुकंपा पर किया जाए। कोरोना के दौरान मृत दुकानदार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, डीलरों को चालल एवं गेहूं के लिए प्रत्यक्ष खरीद एजेंट डीपीए के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए, जूट का बोरा में खाद्यान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ,चालल दो गेहूं एवं चीनी के लिए प्रिक्टिवल के हिसाब से हैंडेलिंग चार्ज दी जाए, समेत कई मांगे शामिल है इस बैठक में वीरेंद्र कुमार, गणेश राणा समेत 50 से ज्यादा दुकानदार मौजूद थे।





पाथरडीह में पाइप चोरी, जलापूर्ति के लिए हाहाकार

चासनाला। सुदामडीह थाना क्षेत्र स्थित पाथरडीह 6 सिम के समीप से अज्ञात चोरो ने गुरुवार की बीती रात पानी के पाइप 4 इंच का लगभग 20 फिट पाइप काट कर चलते बने जिससे स्थानीय लोगों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई हैं इस कारण स्थानीय लोगों में काफी रोश हैं उनका कहना हैं की चोरी का आंतक इतना बढ़ गया हैं की हर हमेसा भय बना रहता हैं। बताते चले की सुदामाडीह थाना क्षेत्र की यह दूसरी घटना को अज्ञात चोरो ने अंजाम दिया हैं।

जमसं बच्चा गुट के क्षेत्रीय कमेटी का पुनर्गठन

तिसरा। जनता मजदूर संघ के महामंत्री बच्चा सिंह के निर्देश पर बस्ताकोला क्षेत्रीय कमेटी का पूर्ण गठन किया गया। सर्वसम्मति से सचिव अभिषेक कुमार परमार चुने गए। अध्यक्ष संजय कुमार बाउरी, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह उपाध्यक्ष उत्तम कुमार, मंगल चौहान संयुक्त सचिव सैयद साबिर खान, सह सचिव अजय प्रसाद कोषाध्यक्ष अभिराम कुंवर सहायक कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र राम जबकि 46 सदस्य को भी कमेटी में रखा गया। समिति गठन के बाद क्षेत्रीय सचिव अख्य कुमार यादव ने कहा कि नया कमेटी आने के बाद और संगठन मजबूत होगा मजदूर की समस्या को लेकर पूरे क्षेत्र में रणनीति बनाकर काम करेंगे। इसकी सूचना रजिस्टर लेबर कमिश्नर एवं सीएमडी को दे दी गई हैं।

बीसीसीएल कर्मियों को बंधक बना लाखों की लूट

पुटकी। पीबी एरिया बीसीसीएल के 6 नंबर पुटकी कोलियरी में बीती रात अपराधियों के एक दल ने हथियार के बल पर कोलकर्मियों को बंधक बनाकर कोलियरी परिसर में जमकर लूटपाट किया। विरोध करने वाले कोलकर्मियों के साथ अपराधियों ने मारपीट कर उनका मोबाइल भी छीन लिया। वहीं भयभीत कोलकर्मि ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे 25 से 30 की संख्या में आये अपराधियों ने कोलियरी में कार्य कर रहे मजदूरों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में लेकर एक रूम में बंद कर दिया और कोलियरी में रखे लाखों के पार्ट पुर्जे केबल लूट लिए हल्ला करने पर अपराधियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। सभी हथियार से लैस थे।

जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, परेशानी

चिरकुंडा। चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना का राइजिंग पाइप तालडांगा हाउसिंग कालोनी के शीतला मंदिर के समीप एयर टेल कंपनी द्वारा आटीकल फाइबर केबल बिछाने के क्रम मे कार्य करने के दौरान लाइन टूट जाने से आज तिसरे दिन भी हजारों नागरिकों को पानी नही मिल सका। लोग बराकर नदी व दूर दर्राज से पानी लाकर प्यास बुझाने को विवस हैं। शुक्रवार को नगर परिषद के अध्यक्ष डब्लू बाउरी, कार्यालक पदाधिकारी विनोद कर्मकार, सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन व घटनास्थल का निरीक्षण किए। इस संबंध मे लोगों का कहना है कि नगर परिषद के कई जगहो पर कंपनी के कर्मियों द्वारा सड़क के किनारे गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है जो खतरनाक दुर्घटना को आमंशण दे रहा है।

बीएसएल में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु

बोकारो। बोकारो संयंत्र के एचआरडी सेंटर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मियों के लिए प्रारम्भ श्वेसिक ऑफ एसीड्डीसी झइव्स पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सीजीएम ,विद्युतद देवाशीष सरकारएं जीएम ,मासविद्ध देवश्री टोप्पोए मेसर्स सीमेंस इंडिया लिमिटेड के केवीबी गोपाल कृष्णा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कमी उपस्थित थे। श्री सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा सभी प्रतिभागियो से इस कार्यक्रम को इंटरैक्टिव बनाने की अपील की।

छाताटांड के ग्रामीणों की भूख हड़ताल शुरू

हर्ल गेट पर दिया धरना

खबर मन्त्र संवाददाता

सिन्दरी। हर्ल गेट के समीप नियोजन को लेकर छाताटांड पंचायत के ग्रामीणों द्वारा शुक्रवार से बेमीयादी भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। इसका नेतृत्व छाताटांड पंचायत के मुखिया डोली हाँसदा व विरसिंहपुर पंचायत मुखिया रांगा किस्कू कर रहे हैं। बेमीयादी भूख हड़ताल में बैठने वालों की संख्या 90 है और अधिकतर युवा शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उत्पादन से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर हर्ल प्रबंधन के वादाखिलाफी एवं अड़ियल रवये के खिलाफ बुधवार से सत्याग्रह धरना दिया जा रहा था। हर्ल प्रबंधन की ओर से गुरुवार तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके लिए



धरना-प्रदर्शन में थे थे शामिल

धरना प्रदर्शन में डोली हाँसदा, रांगा किस्कू, सरोज हाँसदा, रामेश्वर महतो, गंगाधर महतो, हेमलाल मुर्मू, दिनेश महतो, अजय सोरेन, बलराम महतो, सुनीन सोरेन, दीपक महतो, अर्जुन महतो, विजय महतो, माहालाल महतो, राजकुमार किस्कू, अमर बाउरी, पिटू मंडल, अबुज महतो, राजीव सोरेन, निर्मल महतो, फागु रजक, संतोष गोराई, अशोक कुंभकार, दिनेश गोराई, विक्रम बाउरी, विभिषण कुंभकार सहित अन्य ग्रामीण पुरुष, महिलाएँ शामिल रहे।

पूर्वघोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार से भूख हड़ताल व सोमवार से ग्रामीण आमरण अनशन करेंगे। भूख हड़ताल में बैठने वालों में प्रेम

महतो, अजय सोरेन, मिथीधर महतो, राहुल हाँसदा, दीपक महतो, उमेश किस्कू, मनोज महतो सहित 90 युवा शामिल है।

18 सूत्री मांग को ले बिकोकायू ने दिया गोलकडीह में धरना

खबर मन्त्र संवाददाता

तिसरा। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन का दूसरे दिन 18 सूत्री मांगों को लेकर गोलकडीह परियोजना कार्यालय पर धरना जारी। धरना स्थल पर संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद गुप्ता पहुंचे। उन्होंने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रबंधन की नीति सही नहीं है उनका मकसद है डिपार्टमेंटल परियोजना को बंद कर आउटसोर्सिंग परियोजना चलाना जो हम लोग नहीं होने देंगे हम लोगों की मांग है कि परियोजना का विस्तार हो और किसी मजदूर की चटनी ना हो। उन्होंने कहा कि बरसों से मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन

उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है।

आउटसोर्सिंग में जो मजदूर काम करते हैं उनको भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है। ट्रक लोडर मजदूर का भी स्थिति सही नहीं है। प्रबंधन और सरकार के नीति के खिलाफ किसान मजदूरों को एकजुट होकर जोरदार आंदोलन करना होगा। उन्होंने कहा कि जो मजदूरों का 13 दिन का बकाया पैसा है उसे देना होगा आज तो सिर्फ धरना है आने वाले दिन में पूरा बस्ता कोला क्षेत्र का चक्का जाम कर देंगे। स्थानीय प्रबंधन पर भड़ास निकालते हुए कहा कि स्थानीय प्रबंधन लाल झंडा के लोगों को परेशान करती है जो लोग काम करते हैं उनको सन्डे होलीडे नहीं दिया जाता है।

जनता दरबार

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर आम-जन की शिकायतों व समस्याओं को सुना। उन्होंने संज्ञान में आए सभी मामलों के आवेदन को संबंधित पदाधिकारी को तत्काल निष्पादन के लिए अग्रसारित किया। जनता दरबार में मुख्यतः शिक्षा, जमीन विवाद संबंधी, ऑनलाइन रसीद, आवास, पेंशन, रोजगार, स्वास्थ्य, बकाए वेतन, जमीन बंदोबस्ती की मांग, राशन कार्ड से संबंधित आवेदन आए। इस दौरान गोविंदपुर के से आए अलाउद्दीन अंसारी ने जमीन म्यूटेशन में आ रही

आउटसोर्सिंग परियोजना से विस्थापन के खिलाफ प्रदर्शन

खबर मन्त्र संवाददाता

अलकडीहा। जयरामपुर बुढ़ा बाबा मंदिर में बागडिगी,लोदना, बरारी,जयरामपुर,जिनागोरा,सेठक ठेठी में आउटसोर्सिंग चालु होने से विस्थापन मुद्दा पर संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में एक बैठक की गई उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ आउटसोर्सिंग का विरोध किया कहां की सारे मूल भुत सुविधाओं के साथ पहले सारे लोगों को पहले विस्थापन करें उसके बाद उत्पादन करें बैठक में यह तय किया गया की विस्थापन के मुद्दे पर दिनांक 7/2/23 को 11

बजे दिन में लोदना क्षेत्रीय कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।आज के बैठक की अध्यक्षता मुन्द्रिका पासवान एवं संचालन भगवान दास जी ने की बैठक में रामअवतार गोप, सुभाष सिंह,बालकेश्वर सिंह, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, बिरेंद्र निषाद, राधेश्याम यादव, मुकेश सिंह,संजय यादव,सुरेश पासवान,बबलु यादव, रामबाबू सिंह,दिपक सिंह,रुपक सिन्हा, रकेश सिंह,सुनील पासवान, समरजित सिंह,मोहन पांडे, धर्मेन्द्र राय,दिलिप महतो,सुरेश माली आदि उपस्थित थे।

उपायुक्त ने सुनी आमजनों की शिकायतें

छात्रों ने उपायुक्त से की शिष्टाचार मुलाकात

धनबाद। उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों ने आज संघा जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री संदीप सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। छात्रों ने उपायुक्त से उच्च शिक्षा को लेकर प्रश्न किए। उपायुक्त ने छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि जिस काम में रूची हो और संतुष्टि मिले उसी काम को करना चाहिए। इससे पूर्व उपायुक्त ने सभी छात्रों को धनबाद जिले के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और इसका इतिहास बताया। छात्रों से कोयला खनन क्षेत्र देखने का आग्रह किया। सभी छात्र उत्तर पूर्वी भारत के नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर व असम राज्य से आए हैं।

समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। उन्होंने बताया की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने म्यूटेशन को अर्जी दी थी जिसको रिजैक्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वह अपने घर का ही जमीन खरीद रहें हैं जिसमें उनका दखल भी है। वहीं धनसार से आई एक दिव्यांग महिला इंडु देवी ने उपायुक्त को पेंशन संबंधित समस्याओं से अवगत कराया।

उन्होंने बताया की उनकी दिव्यांग्यता पेंशन की राशि विगत 6 माह से खाते में नहीं आई है। इस दौरान तोपचांची प्रमुख ने प्रखंड के हरहरपुर पंचायत अंतर्गत संधालडीह की नारी विकास सहायता समूह की अध्यक्ष का विरुद्ध राशन गबन, अधिक पैसा लेने, कम राशन देने, कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा लेने तथा लाभुकों को धमकी देने से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई।

बोकारो : वीएसएल के आरएमपी में कैपिटल रिपेयर के बाद लाइट अप



खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। बीएसएल के आरएमपी विभाग में कैपिटल रिपेयर के साथ.साथ टीआरएम का कार्य सम्पन्न होने के बाद ईडी ,वर्क्सड बी के तिवारी द्वारा किल्ल संख्या 4 को प्रचलित किया गया। मौके पर सीजीएम ;अनुरक्षण कैपिटल रिपेयरए आरईडीए सामान्य अनुरक्षण एवं अन्य विभागों का योगदान रहा।

डिजिटल टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। बीएसएल के सीआरएम .3 विभाग में जीएम ,सीआरएम.3इ बीएन त्रिपाठी की अध्यक्षता में राजभाषा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जीएम सुनील कुमार एजीएम टी श्रीवास्तव वरीय प्रबंधक ,राजभाषाद एवं बीएसएल के हिंदी अधिकारी शशांक शेखर सहित सीआरएम.3 विभाग के अन्य अधिकारी एवं कमी उपस्थित थे। श्री त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह के कार्यशाला के आयोजन से कर्मियों के बीच राजभाषा नीति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। शशांक शेखर ने राजभाषा सम्बंधित नियमोंए अधिनियमों तथा युनिकोड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में राजभाषा हिन्दी से सम्बंधित आयोजित प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को शशांक शेखर द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की रूपरेखा तथा इसकी उपयोगिता की जानकारी दी।बी के तिवारी ने स्टील प्लांट के लिये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्री.4पी टेक्नोलॉजी को उपायुक्त तथा अतिरिक्त प्रभार ईडी ;पी एंड एड्ड अमिताभ श्रीवास्तवए सीजीएम बी के सरतापेए मनीष जलोटा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। मनीष जलोटा ने मुख्य अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण की उपयोगिता के संबंध में चर्चा की। बी के सरतापे ने इस

प्रतिभागियो को अपने लर्निंग प्वाइंट्स को सहकर्मियों से साझा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन जीएम देवा श्री टोप्पो ने किया तथा संयोजन डीजीएम ए एन सिंह तथा सहायक प्रबन्धक ए के मजूमदार ने किया।

पानी का छिड़काव नहीं हुआ, तो होगा चक्का जाम

रागिनी सिंह ने प्रोजेक्ट ऑफिसर देवेंद्र सिंह को एक झापन सौंपा। रागिनी सिंह झापन सौंपते हुए कई शब्दों में चेतावनी देते हुये का कह कि अगर 48 घंटे के अंदर सड़क का साफ सफाई और हर दिन पानी छिड़काव नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम कर देंगे।

छा जाता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार कोयले को तिरपाल से पूरी तरह से ढंककर ले जाना है और सड़कों पर धूल से बचाव के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव भी करना है। लेकिन तो कोयले से लदे हाइवा तिरपाल से ढंके होते हैं और ही नियमानुसार सड़कों पर पानी का छिड़काव ही किया जा रहा है। इतना ही नहीं

अधिकांश हाइवा चालक कम उम्र के होते हैं, जिस कारण आए दिन हाइवा से राजा सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कोयले से लदे हाइवा के चलने से उड़ने वाली डस्ट इस कदर उड़ती है कि आसपास के घरों में धूल की मोटी परत जम जा रही है।स्वाक्सर देवीहत्या वाहन चालकों को धूल से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

सरस्वती शिशु मंदिर के मैया शुभम और बहन ईशा ने लहराया परचम

कतरास। सरस्वती शिशु मंदिर श्यामडीह के भैया दयाल कुमार बाउरी, भैया शुभम अग्रवाल, बहन ईशा कुमारी और अन्य कई बच्चों ने ऑल इंडिया सीए फाउंडेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपना परचम लहराया और विद्यालय का नाम रोशन किया। भैया बहनों के उम्दा प्रदर्शन से विद्यालय परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य अभिमन्यु कुमार, विद्यालय के अध्यक्ष प्रदीप खेमका, सचिव विक्रम कुमार राजगढ़िया ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उन्हें पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया।

डाटा प्रबंधन उपयोग कार्यशाला का आयोजन

कुमारखुर्ी। चिरकुंडा मंडल में डाटा प्रबंधन उपयोग कार्यशाला का कार्यक्रम चिरकुंडा मंडल अध्यक्ष बापी सेन गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संचालन चिरकुंडा मंडल महामंत्री जगरनाथ सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे,धनबाद जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष श्रीमती रानी केराई, जिला मंत्री अनिल यादव, कार्यक्रम की प्रभारी सुरजीत चंद्रा ,चिरकुंडा मंडल उपाध्यक्ष अरबिंद सिन्हा, सुनीता देवी, मून विलियम अभिसेख दास, नंदलाल, मदन शर्मा, पवन शर्मा, विजय राय, ब्रजेश सिंह, कासी साव, रीना बनर्जी, चिरकुंडा मंडल अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष सुमित्रा सोय,कमला सावि्यां, अरविता बिरुआ, भिंदू गाड़ियां,कार्यक्रम के संयोजक संतोष सिंह, पवन साव, अरविंद कुमार, भृगु नाथ प्रसाद, चंदन रविदास इत्यादि शामिल रहे।

पेज एक का शेष

झारखंड में आदिवासी सीएम बने ...

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा संकल्प अगले 10 सालों में राज्य को गुजरात जैसा विकसित बनाने का है। इसे हर हाल में पूरा करेंगे। राज्य के प्रत्येक लोगों की चेहरे पर खुशी हो, लेकिन भाजपा का संकल्प मुझे जेल भेजना है। इसके लिए लगातार ईडी और सीबीआई जैसे सांप को काटने के लिए भेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल, इडी और सीबीआई के माध्यम से हमें तंग किया जा रहा है, लेकिन हमारे घर में है ही क्या। हमलोग गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापारियों से हमारी सांठगांठ नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति विधानसभा से पारित है। इस विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया है, लेकिन इससे हम हार नहीं मानेंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार जाने के बाद महागठबंधन की हमारी सरकार में राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। हमने जो वादा किए थे, उसे लगभग पूरा किये हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार का दिल बड़ा है।

विकास पर बजट का हो फोकस...

हमीन कर बजट पोर्टल के माध्यम से बेहतरीन सुझाव भेजने वाले प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। बेहतर सुझाव देने वाले प्रतिभागियों में नेहा कुमारी, निखिल कुमार मंडल, हर्षनाथ शाहदेव, कृष्ण कुमार राणा तथा दुर्गेश कुमार झा शामिल थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, योजना सचिव अमिताभ कौशल सहित कई विभागों के प्रधान सचिव तथा सचिव एवं राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

अमित शाह आज देवघर में ...

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देवघर में अमित शाह का कार्यक्रम है। अमित शाह की विजय संकल्प रैली से भाजपा संथालपरगना में मजबूत होंगी। 2024 के चुनाव में राजमहल सीट और विधानसभा चुनाव में सोरेन परिवार को रांची नहीं पहुंचने देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी में काफी उत्साह है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी स्तर से की जा रही तैयारियों पर उन्होंने संतुष्टि जतायी है। उल्लेखनीय है अगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक महीने के भीतर अमित शाह की झारखंड में ये दूसरी रैली होगी। पहली रैली सात जनवरी को चाईबासा में हुई थी।

सुनीता चौधरी का आज नामांकन...

ये उपचुनाव सेमीफाइनल होगा : भगत: प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ देव शरण भगत ने कहा कि यह उपचुनाव अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। इस चुनाव में सोरेन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से अपना हिस्सा मांगेगी। उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता देने, स्थानीय नियोजन नीति जैसे सभी मामलों पर सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी से नीतियां बनाती है, जो कानून के दायरे में आ जाता है और उसे रिजैक्ट कर दिया जाता है। 2019 में भी सुनीता चौधरी को आजसू पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी से चुनाव हार गयी थी।

राज्यपाल ने दो विधेयक को दी मंजूरी...

27 से सत्र तीन मार्च को बजट: राज्यपाल की स्वीकृति के साथ ही अब झारखंडज विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी शुरू होगा। हेमंत सोरेन सरकार अपना चौथा बजट 3 मार्च को पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि बजट सत्र 23 मार्च तक चलेगा। उन्होंने कहा कि बजट के साथ ही सरकार साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लायेगी। जायेगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूर्क बजट भी पेश करेंगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा।

नियोजन नीति बिल भी संभव: जानकारी के अनुसार सरकार नियोजन नीति पर विधेयक ला सकती है। इसके अलावा स्थानीयता को लेकर भी फिर से सदन में विधेयक लाया जा सकता है। मालूम हो कि 1932 आधारित स्थानीयता नीति को राज्यपाल ने वापस कर दिया है। जिस तरह से इस मामले पर सत्ता पक्ष राज्यपाल को कठघरे मे खड़ा कर रहा है, उसके बाद से यह उम्मीद है कि एक बार फिर से इस विधेयक को सदन से पारित कराया जा सकता है। **राज्यपाल ने दिये थे कई सुझाव:** झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को लेकर राज्यपाल ने सरकार को कई सुझाव दिये थे। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाये। बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाये। साथ ही, जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आनेवाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाये। राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी बनाया जाये।

हाइकोर्ट ने सरकार और अनूप सिंह जवाब मांग...

जीरो एफआइआर के हाइकोर्ट में अर्जी थी: विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में करायी गयी जीरो एफआइआर के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजेश कच्छप ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में हुई। विधायक राजेश कच्छप की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट में बहस की। हाइकोर्ट ने बंगाल पुलिस को जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तीनों विधायकों की 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोलकाता पुलिस ने पकड़ था. कलकत्ता हाइ कोर्ट ने उन्हें पूर्व में जमानत दे दी है।



